



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



PATRIOTIC IAS

THE HINDU NEWSPAPER

DAILY CURRENT AFFAIRS

22 AUGUST 2025

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below:

<https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

22_08_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (PCS Special)

1. 'Kerala India's first fully digitally literate State'
'केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य'
2. Quiz
3. Vishal rewrites 400m National record; pole vaulter Baranica equals meet mark
विशाल ने 400 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड दोबारा लिखा; पोल वॉल्टर बरनिका ने मीट मार्क की बराबरी की

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



'Kerala India's first fully digitally literate State'

PCS

The Hindu Bureau

THIRUVANANTHAPURAM

Chief Minister Pinarayi Vijayan on Thursday declared Kerala the first fully digitally literate State in India, marking the completion of the first phase of the Digi Kerala project, a grassroots-level intervention across all local bodies to bridge the digital divide.

Following the formal declaration, Mr. Vijayan interacted on a video call with 104-year old M.A. Abdullah Moulavi Baqavi from Asamannoor panchayat in Er-

nakulam district, one of the oldest students who were trained under the Digi Kerala project.

In the surveys carried out among 1.5 crore people from 83.46 lakh families across the State, 21.88 lakh people were identified as digitally illiterate. Out of this, 21.87 lakh people, comprising 99.98% of the participants have completed the training and successfully completed the evaluation. "Kerala has put forward yet another model worth emulating for the country," said Mr. Vijayan.

'Kerala India's first fully digitally literate State'

'केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य'

Chief Minister Pinarayi Vijayan on Thursday declared Kerala the first fully digitally literate State in India, marking the completion of the first phase of the Digi Kerala project, a grassroots-level intervention across all local bodies to bridge the digital divide.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया, जिससे डिजी

केरल प्रोजेक्ट के पहले चरण की पूर्णता का संकेत मिला, जो सभी स्थानीय निकायों में डिजिटल खाई को पाटने के लिए एक जमीनी स्तर का हस्तक्षेप है।

- Following the formal declaration, Mr. Vijayan interacted on a video call with **104-year old M.A. Abdullah Moulavi Baqavi from Asamannoor panchayat in Ernakulam district**, one of the oldest students who were trained under the Digi Kerala project.
औपचारिक घोषणा के बाद, श्री विजयन ने **104 वर्षीय एम.ए. अब्दुल्ला मौलवी बक्कावी, एर्नाकुलम जिले के असमनूर पंचायत** से, जो **डिजी केरल प्रोजेक्ट** के तहत प्रशिक्षित सबसे पुराने छात्रों में से एक हैं, के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की।
- In the surveys carried out among **1.5 crore people** from **83.46 lakh families** across the State, **21.88 lakh people** were identified as digitally illiterate.
पूरे राज्य की **83.46 लाख परिवारों** से **1.5 करोड़ लोगों** पर किए गए सर्वेक्षणों में, **21.88 लाख लोगों** को डिजिटल रूप से निरक्षर पहचाना गया।
- Out of this, **21.87 lakh people**, comprising **99.98%** of the participants have completed the training and successfully completed the evaluation.



इसमें से, **21.87 लाख लोगों** यानी **99.98% प्रतिभागियों** ने प्रशिक्षण पूरा किया और सफलतापूर्वक मूल्यांकन पूरा किया।

- **"Kerala** has put forward yet another model worth emulating for the country," said Mr. Vijayan.

"केरल ने देश के लिए अनुकरणीय एक और मॉडल प्रस्तुत किया है," श्री विजयन ने कहा।



Visual question:

The picture shows the EC logo. Name the person who designed it.

The ECI logo was designed by **N. Shankar Pillai**, a renowned political cartoonist



Questions and Answers to the previous

day's daily quiz: 1. This iconic painting was stolen in 1911 by three Italian handymen. Ans: **Mona Lisa**

2. This man is considered the greatest sprinter of all time. Ans: **Usain Bolt**

3. This unique island State officially became the _____ State of the United States in 1959. Ans: **Hawaii; 50**

4. The wedding of this British royal was the first royal wedding to be broadcast on national television. Ans: **Countess of Snowdon**

5. This American swimmer won his eighth medal at the Olympics in 2004. The place where the Olympics was held and the number of number of gold medals the swimmer won in this specific Olympics. Ans: **Michael Phelps won six gold medals at the Athens Olympics in Greece**

Visual: Bambi was adapted from this book. Ans:

Bambi: A Life in the Woods by Felix Salten

Early Birds: C. Saravanan| Sonali Das| Tito Shiladitya| Arjun Debnath| Sukdev Shet

Quiz

This iconic painting was stolen in 1911 by three Italian handymen. Ans: **Mona Lisa**

यह प्रसिद्ध पेंटिंग वर्ष 1911 में तीन इटालियन मजदूरों द्वारा चुराई गई थी। उत्तर: मोना लिसा

• This man is considered the **greatest sprinter** of all time. Ans: **Usain Bolt**

इस व्यक्ति को अब तक का सबसे महान धावक माना जाता है। उत्तर: यूसेन बोल्ट

Usain Bolt

Basic Information

- **Full Name:** Usain St. Leo Bolt
- **Born:** 21 August 1986, Sherwood Content, Jamaica
- **Nickname:** *Lightning Bolt*
- **Nationality:** Jamaican
- **Height:** 1.95 m (6 ft 5 in)
- **Sport:** Athletics (Track & Field – Sprinting)

Athletic Career

- Specialised in **100 metres, 200 metres, and 4 × 100 metres relay**.
- Known as the **fastest man in the world**.
- Famous for his **“To Di World” (Lightning Bolt) victory pose**.

Major Achievements

- **Olympic Games:**
 - Won **8 Olympic gold medals** (2008 Beijing, 2012 London, 2016 Rio).



- Only sprinter to win gold in both 100m and 200m in **three consecutive Olympics**.
- **World Records:**
 - **100 metres:** 9.58 seconds (World Record, Berlin 2009).
 - **200 metres:** 19.19 seconds (World Record, Berlin 2009).
 - **4 × 100 metres relay:** 36.84 seconds (World Record, London 2012, with Jamaica team).
- **World Championships:** 11-time World Champion.

- This unique island **State** officially became the **50th State** of the **United States** in **1959**. Ans: **Hawaii; 50**
यह अदोखा द्वीपीय राज्य आधिकारिक रूप से 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य बना। उत्तर: हवाई; 50

- **Hawaii** is the only **island state** of the USA, located in the **Pacific Ocean**.
- It officially became the **50th state on August 21, 1959**, after a referendum where the people of Hawaii voted in favor of statehood.
- The state is known for its **volcanoes, beaches, surfing culture, and diverse ecosystems**.
- Its capital is **Honolulu**, located on the island of **Oahu**.
- Hawaii also has a unique historical significance as the site of **Pearl Harbor (1941)**, which led the USA into **World War II**.

● **Mnemonic to Remember:**

"Hawaii is the 50th star on the American flag" 🌸 🌟

- This American swimmer won his **eighth medal** at the **Olympics** in **2004**. The place where the Olympics was held and the number of **gold medals** the swimmer won in this specific Olympics. Ans: **Michael Phelps won six gold medals at the Athens Olympics in Greece**
इस अमेरिकी तैराक ने 2004 ओलंपिक में अपना आठवां पदक जीता। वह स्थान जहाँ ओलंपिक हुआ और इस विशेष ओलंपिक में तैराक द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या। उत्तर: माइकल फेलप्स ने ग्रीस के एथेंस ओलंपिक में छह स्वर्ण पदक जीते

Vishal rewrites 400m National record; pole vaulter Baranica equals meet mark

PCS

ATHLETICS

K. Keerthivasan
CHENNAI

Tamil Nadu's Vishal T.K. has been one of the standout athletes for India in the men's 400m this season having run sub-46s five times.

The 21-year-old justified his growing potential by bagging the gold medal with a National record of 45.12s in the National interstate athletics on Thursday.

Vishal broke Muhammed Anas' record of 45.21 set in Bhubaneswar in 2019. Still, he couldn't come anywhere close to the qualification mark (44.85) for the Worlds.

Earlier, Baranica Elangovan of Tamil Nadu cleared 4.10m in women's pole vault and equalled the meet record set by Tamil Nadu's Pavithra Venkatesh in Bhubaneswar in 2023.

Haryana's Pooja, considered one of the bright prospects to qualify for the Worlds in 1500m, strengthened her chances of making the grade through World rankings, with a strong show (4:10.68).

Credits hard work

Vishal credited the 4x400m Indian men's relay coach Jason Dawson for the improvement.

"He (Jason) needs results. He prepared me for the National record. Actually, the National record is a reward for my hard work. I always run for my personal best," said Vishal, who switched to 400m last year after starting with sprints.

Dawson lavished praise on his ward. "What Vishal brings to the table is something I have always been asking the older athletes for. "I always ask for



Surging ahead: Vishal won the 400m gold in 45.12s. R. RAGU



Joyful moment: Yoonus Shah won the 1,500m. R. RAGU



Pulling away: Pooja, winner of the women's 1,500m. R. RAGU

honesty and dedication, and I see it in Vishal."

The results (winners only):

Men: 400m: Vishal T.K. (TN) 45.12s (NR) (OR: Muhammed

Anas 45.21, 2019).

1500m: Yoonus Shah (UP) 3:41.22s.

Discus: Kripal Singh (Chd) 55m.

Women: 400m: Devyaniba Zala

(Guj) 53.37s; **1500m:** Pooja (Har) 4:10.68s; **Pole vault:** Baranica Elangovan (TN) 4.10m (EMR — Pavithra Venkatesh, 4.10m, Bhubaneswar, 2023); **Shot put:** Kachnar Chaudhary (Raj) 15.75m.

Vishal rewrites 400m National record; pole vaulter Baranica equals meet mark

विशाल ने 400 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड दोबारा लिखा; पोल वॉल्टर बरनिका ने मीट मार्क की बराबरी की



Tamil Nadu's Vishal T.K. has been one of the standout athletes for India in the men's 400m this season having run sub-46s five times.

तमिलनाडु के विशाल टी.के. इस सीज़न में भारत के पुरुषों के 400 मीटर में सबसे शानदार खिलाड़ियों में से रहे हैं जिन्होंने पाँच बार 46 सेकंड से कम का समय निकाला।

- The **21-year-old** justified his growing potential by bagging the gold medal with a **National record of 45.12s** in the National interstate athletics on Thursday.
21 वर्षीय खिलाड़ी ने गुरुवार को नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक्स में **45.12 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड** बनाकर स्वर्ण पदक जीतते हुए अपनी बढ़ती क्षमता को साबित किया।
- **Vishal broke Muhammed Anas' record of 45.21 set in Bhubaneswar in 2019.** Still, he couldn't come anywhere close to the qualification mark (**44.85**) for the Worlds.
विशाल ने 2019 में भुवनेश्वर में बने मुहम्मद अंस का **45.21 सेकंड का रिकॉर्ड** तोड़ा। फिर भी वे वर्ल्ड्स के क्वालिफिकेशन मार्क (**44.85**) के करीब नहीं पहुंच पाए।
- Earlier, **Baranica Elangovan of Tamil Nadu** cleared **4.10m** in women's pole vault and equalled the meet record set by Tamil Nadu's **Pavithra Venkatesh in Bhubaneswar in 2023.**
इससे पहले, तमिलनाडु की बरनिका इलंगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में **4.10 मीटर** पार करते हुए 2023 भुवनेश्वर में तमिलनाडु की पवित्रा वेंकटेश के बनाए मीट रिकॉर्ड की बराबरी की।
- **Haryana's Pooja**, considered one of the bright prospects to qualify for the Worlds in **1500m**, strengthened her chances of making the grade through World rankings, with a strong show (**4:10.68**).
हरियाणा की पूजा, जिन्हें **1500 मीटर** में वर्ल्ड्स के लिए क्वालीफाई करने की प्रमुख दावेदार माना जाता है, ने शानदार प्रदर्शन (**4:10.68**) से वर्ल्ड रैंकिंग के माध्यम से ग्रेड बनाने की अपनी संभावना मजबूत की।
- **Credits hard work**
कड़ी मेहनत का श्रेय
- **Vishal** credited the **4x400m Indian men's relay coach Jason Dawson** for the improvement.
विशाल ने अपने सुधार का श्रेय **4x400 मीटर भारतीय पुरुष रिले कोच जेसन डॉसन** को दिया।
- "He (**Jason**) needs results. He prepared me for the **National record**. Actually, the **National record** is a reward for my hard work. I always run for my personal best," said **Vishal**, who switched to **400m** last year after starting with sprints.
"उन्हें (**जेसन**) परिणाम चाहिए। उन्होंने मुझे **राष्ट्रीय रिकॉर्ड** के लिए तैयार किया। वास्तव में, यह **राष्ट्रीय रिकॉर्ड** मेरी मेहनत का इनाम है। मैं हमेशा अपना पर्सनल बेस्ट दौड़ता हूँ," विशाल ने कहा, जिन्होंने पिछले साल स्प्रिंट से **400 मीटर** में स्विच किया।
- **Dawson** lavished praise on his ward. "What **Vishal** brings to the table is something I have always been asking the older athletes for. I always ask for honesty and dedication, and I see it in **Vishal**."
डॉसन ने अपने खिलाड़ी की जमकर तारीफ की। "जो **विशाल** लेकर आते हैं, वही मैं हमेशा पुराने खिलाड़ियों से मांगता रहा हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी और समर्पण मांगता हूँ, और मुझे यह **विशाल** में दिखता है।"
- **The results (winners only):**
परिणाम (केवल विजेता):
- **Men: 400m: Vishal T.K. (TN) 45.12s (NR) (OR: Muhammed Anas 45.21, 2019).**
पुरुष: 400 मीटर: विशाल टी.के. (तमिलनाडु) **45.12 सेकंड (राष्ट्रीय रिकॉर्ड)** (पुराना रिकॉर्ड: मुहम्मद अंस **45.21, 2019**)।
- **1500m: Yoonus Shah (UP) 3:41.22s.**
1500 मीटर: यूनस शाह (उत्तर प्रदेश) **3:41.22 सेकंड**।
- **Discus: Kripal Singh (Chd) 55m.**
डिस्कस: कृपाल सिंह (चंडीगढ़) **55 मीटर**।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Women: 400m: Devyaniba Zala (Guj) 53.37s; 1500m: Pooja (Har) 4:10.68s; Pole vault: Baranica Elangovan (TN) 4.10m (EMR — Pavithra Venkatesh, 4.10m, Bhubaneswar, 2023); Shot put: Kachnar Chaudhary (Raj) 15.75m.

महिला: 400 मीटर: देव्यानीबा ज़ाला (गुजरात) 53.37 सेकंड; 1500 मीटर: पूजा (हरियाणा) 4:10.68 सेकंड; पोल वॉल्ट: बरनिका इलंगोवन (तमिलनाडु) 4.10 मीटर (मीट रिकॉर्ड बराबरी — पवित्रा वेंकटेश, 4.10 मीटर, भुवनेश्वर, 2023); शॉट पुट: कचनार चौधरी (राजस्थान) 15.75 मीटर।

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

- 1. Dal Lake hosts first-ever Khelo India water games with eye on Olympics**
डल झील ने पहली बार खेले इंडिया वाटर गेम्स की मेज़बानी की, ओलंपिक पर नज़र
- 2. Polavaram project: BJD urges Ministry to re-examine clearance**
पोलावरम परियोजना: बीजद ने मंत्रालय से मंजूरी की पुनः समीक्षा करने का आग्रह किया
- 3. Ensure universal registration of births, deaths: RGI to States**
जन्म और मृत्यु का सार्वभौमिक पंजीकरण सुनिश्चित करें: राज्यों को RGI
- 4. What has NOTTO said about organ donations to women?**
महिलाओं को अंगदान के बारे में NOTTO ने क्या कहा है?



Celebrating sports



Opening act: Artistes perform on a shikara during the opening ceremony of the first-ever Khelo India Water Sports Festival at Dal Lake in Srinagar on Thursday. More than 800 athletes will participate in events like rowing, canoeing, and kayaking. IMRAN NISSAR (REPORT: PAGE 2)

PATRIOTIC



Dal Lake hosts first-ever Khelo India water games with eye on Olympics

GS I:A&C

Peerzada Ashiq

SRINAGAR

The picturesque and iconic Dal Lake in Srinagar on Thursday hosted the first-ever races under rowing, kayaking, and canoeing categories under the Khelo India Water Sports Festival, with an eye on improving the rank in water sports at the Olympics in the coming years.

409 athletes from 36 States and Union Territories are participating in the water sports events, competing for 24 gold medals over the next three days. Of the 409 participants, 202 are female athletes.

Madhya Pradesh has sent the largest contingent of 44 athletes, followed by Haryana (37), Odisha (34),



Athletes participating in the first-ever Khelo India Water Sports Festival, at the Dal Lake in Srinagar on Thursday. IMRAN NISSAR

and Kerala (33).

“The waters of the Dal Lake offer the same setting as in Europe. It’s going to unmask talent in J&K as well as across the country. Water sports have 16 medals in the Olympics and remain the key to bettering our ranks at the international platform,” Bilquis

Mir, who became India’s first jury member in the Olympics in 2025, said.

The Khelo India Water Sports Festival is also the first consolidated open-age category championship, where all 14 kayaking and canoeing events and the 10 rowing events are Olympic events.

Dal Lake hosts first-ever Khelo India water games with eye on Olympics

डल झील ने पहली बार खेले इंडिया वाटर गेम्स की मेज़बानी की, ओलंपिक पर नज़र

The picturesque and iconic Dal Lake in Srinagar on Thursday hosted the first-ever races under **rowing, kayaking, and canoeing** categories under the **Khelo India Water Sports Festival**, with an eye on improving the rank in water sports at the Olympics in the coming years.

श्रीनगर की खूबसूरत और प्रतिष्ठित डल झील ने गुरुवार को पहली बार खेले इंडिया वाटर



स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग श्रेणियों में दौड़ों की मेज़बानी की, आने वाले वर्षों में ओलंपिक में वाटर स्पोर्ट्स की रैंकिंग सुधारने पर ध्यान रखते हुए।

- 409 athletes from 36 States and Union Territories are participating in the water sports events, competing for 24 gold medals over the next three days.
36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 409 खिलाड़ी वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, जो अगले तीन दिनों में **24 स्वर्ण पदकों** के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
- Of the 409 participants, 202 are female athletes.
409 प्रतिभागियों में से **202 महिला खिलाड़ी** हैं।
- Madhya Pradesh has sent the largest contingent of 44 athletes, followed by Haryana (37), Odisha (34), and Kerala (33).
मध्य प्रदेश ने सबसे बड़ा **44 खिलाड़ियों का दल** भेजा है, इसके बाद **हरियाणा (37), ओडिशा (34) और केरल (33)** का स्थान है।
- “The waters of the Dal Lake offer the same setting as in Europe. It’s going to unmask talent in J&K as well as across the country. **Water sports have 16 medals in the Olympics and remain the key to bettering our ranks at the international platform,**” Bilquis Mir, who became India’s first jury member in the Olympics in 2025, said.
“डल झील का पानी यूरोप जैसा ही माहौल प्रदान करता है। यह जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में प्रतिभा को उजागर करेगा। **वाटर स्पोर्ट्स में ओलंपिक में 16 पदक** होते हैं और यह हमारी अंतरराष्ट्रीय मंच पर रैंक सुधारने की कुंजी है,” **बिलक़ीस मीर** ने कहा, जो **2025 में भारत की पहली जूरी सदस्य** बनीं।
- The **Khelo India Water Sports Festival is also the first consolidated open-age category championship, where all 14 kayaking and canoeing events and the 10 rowing events are Olympic events.**
खेले इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली संयुक्त ओपन-एज कैटेगरी चैंपियनशिप भी है, जहां सभी **14 कयाकिंग और कैनोइंग इवेंट्स** और **10 रोइंग इवेंट्स ओलंपिक इवेंट्स** हैं।

Khelo India Water Sports Festival – August 2025

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल – अगस्त 2025

- The first-ever **Khelo India Water Sports Festival** will be organised at **Srinagar’s iconic Dal Lake** from **21st – 23rd August 2025**.
पहला **खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल** श्रीनगर की प्रसिद्ध **डल झील** में **21 – 23 अगस्त 2025** तक आयोजित किया जाएगा।
- The announcement was made by **Union Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya** on **3 July 2025**.
यह घोषणा **केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया** द्वारा **3 जुलाई 2025** को की गई।
- This marks another milestone in the **Khelo India initiative**, aiming to promote **sports inclusivity, discover emerging talent, and expand the scope of sporting disciplines in India**.
यह **खेलो इंडिया** पहल में एक और उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य **खेलों में समावेशिता को बढ़ावा देना, उभरती प्रतिभाओं की खोज करना और भारत में खेल विषयों के दायरे का विस्तार करना** है।



Background of Khelo India Initiative

खेलो इंडिया पहल की पृष्ठभूमि

- **Khelo India Programme** was launched in **2018** by the **Ministry of Youth Affairs and Sports** to strengthen the sports ecosystem at the grassroots level.
खेलो इंडिया कार्यक्रम को 2018 में युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था।
- It focuses on **identifying young talent, providing them with training, infrastructure, and financial assistance.**
यह युवा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
- Over the years, the programme has expanded to include **Khelo India Youth Games, Khelo India Winter Games, Khelo India University Games, and Para Games.**
वर्षों में, इस कार्यक्रम का विस्तार कर इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और पैरा गेम्स को शामिल किया गया।
- In **2025**, the government introduced more formats, including the **Khelo India Beach Games (Diu, May 2025)** and now the **Khelo India Water Sports Festival.**
2025 में, सरकार ने और प्रारूप जोड़े, जिनमें खेलो इंडिया बीच गेम्स (दीव, मई 2025) और अब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शामिल हैं।

Details of Khelo India Water Sports Festival 2025

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का विवरण

- **Venue: Dal Lake, Srinagar, Jammu and Kashmir**
स्थान: डल झील, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
- **Dates: 21st – 23rd August 2025**
तिथि: 21 – 23 अगस्त 2025

Organised by: **Ministry of Youth Affairs and Sports** under the **Khelo India** programme

आयोजक: युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत

- **Sports Disciplines Included:**
शामिल खेल विषय:
- **Kayaking & Canoeing**
कयाकिंग और कैनोइंग
- **Rowing**
रोइंग
- **Water Skiing**
वाटर स्कीइंग

Shikara Race (traditional boat race unique to Dal Lake)

शिकारा रेस (डल झील की पारंपरिक नाव दौड़)

Dragon Boat Racing

ड्रैगन बोट रेसिंग



Participation

प्रतिभागिता

- The competition will be an **open-age category event**.
प्रतियोगिता एक **ओपन-एज कैटेगरी इवेंट** होगी।
- **400+ athletes** from all **36 States and Union Territories** are expected to participate.
सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400+ एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है।
- Athletes will be nominated by their respective **National Sports Federations (NSFs)** based on their performance in **national championships or other suitable events**.
खिलाड़ियों को उनके **राष्ट्रीय चैंपियनशिप या अन्य उपयुक्त प्रतियोगिताओं** में प्रदर्शन के आधार पर उनकी संबंधित **राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs)** द्वारा नामित किया जाएगा।
- The **Games Technical Conduct Committee** will finalise entries based on merit.
गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी योग्यता के आधार पर प्रविष्टियों को अंतिम रूप देगी।

PATRIOTIC IAS



Polavaram project: BJD urges Ministry to re-examine clearance

GS I: Revers and Dams

Satyasundar Barik

BHUBANESWAR

The Biju Janata Dal (BJD) on Thursday urged Ministry of Tribal Affairs (MoTA) to re-examine and revisit its statutory Rehabilitation and Resettlement (R&R) clearance accorded to Polavaram Multipurpose Project.

Submitting a memorandum to Union Tribal Affairs Minister Jual Oram, the regional party said lives and livelihood of thousands of people in Odisha's Malkangiri district were at stake

आग्रह किया।

and they were facing existential threat owing to Polavaram.

The party moved MoTA, a day after high-level delegation from BJD comprising Rajya Sabha members and former Ministers met Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil and Chairman of the Central Water Commission in New Delhi, expressing concerns over reported arbitrary expansion and unregulated implementation of the Project.

The party demanded initiation of a comprehensive backwater study.

- Submitting a memorandum to **Union Tribal Affairs Minister Jual Oram**, the regional party said lives and livelihood of thousands of people in **Odisha's Malkangiri district** were at stake and they were facing existential threat owing to **Polavaram**.

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम को ज्ञापन सौंपते हुए, इस क्षेत्रीय दल ने कहा कि ओडिशा के मलकानगिरी जिले में हजारों लोगों का जीवन और आजीविका दांव पर लगी है और वे पोलावरम के कारण अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहे हैं।

- The party moved **MoTA**, a day after a high-level delegation from **BJD** comprising **Rajya Sabha members** and former Ministers met the Union **Minister for Jal Shakti C.R. Patil** and **Chairman of the Central Water Commission** in **New Delhi**, expressing concerns over reported arbitrary expansion and unregulated implementation of the Project.

बीजद का उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें राज्यसभा सदस्य और पूर्व मंत्री शामिल थे, ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी। इसके एक दिन बाद पार्टी ने **MoTA** से संपर्क किया और परियोजना के कथित मनमाने विस्तार और अनियंत्रित क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की।

- The party demanded initiation of a comprehensive **backwater study**.
पार्टी ने एक व्यापक बैकवॉटर अध्ययन शुरू करने की मांग की।

**Polavaram project:
BJD urges Ministry
to re-examine
clearance**

**पोलावरम परियोजना:
बीजद ने मंत्रालय से
मंजूरी की पुनः समीक्षा
करने का आग्रह किया**

The Biju Janata Dal (BJD) on Thursday urged the Ministry of Tribal Affairs (MoTA) to re-examine and revisit its statutory Rehabilitation and Resettlement (R&R) clearance accorded to Polavaram Multipurpose Project.

बीजू जनता दल (बीजद) ने गुरुवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) से पोलावरम बहुउद्देश्यीय परियोजना को दी गई वैधानिक पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) मंजूरी की पुनः समीक्षा और पुनर्विचार करने का



Ensure universal registration of births, deaths: RGI to States

GS I: Population

Vijaita Singh
NEW DELHI

The Registrar General of India (RGI) asked States to take steps towards achieving universal registration of births and deaths. Officials were told that following the directives of the Supreme Court, all government hospitals have been declared “registrars” of births and deaths.

Hospitals have to report the event within 21 days. If the event has taken place in a hospital, a medical officer in-charge is required to report it under Section 8(1)(B) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, officials were told at a conference on Thursday.

The Act, which was amended in 2023, makes online registration of births and deaths compulsory on the RGI portal. Earlier, States maintained their own database and shared statistics with the RGI office that functions under the Union Home Ministry. The database with the RGI can be used to update electoral rolls, National Population Register (NPR), and ration cards.

From October 1, 2023, the digital birth certificate is the single document to prove the date of birth for various services such as admission to educational institutions, government jobs and marriage registration among others.

event has taken place in a hospital, a **medical officer** in-charge is required to report it under **Section 8(1)(B) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969**, officials were told at a conference on Thursday.

अस्पतालों को घटना की सूचना **21 दिनों** के भीतर देनी होगी। यदि घटना अस्पताल में हुई है, तो **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी** को **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8(1)(B)** के तहत रिपोर्ट करना आवश्यक है, यह अधिकारियों को गुरुवार को एक सम्मेलन में बताया गया।

- The **Act**, which was amended in **2023**, makes **online registration** of births and deaths compulsory on the **RGI portal**. Earlier, States maintained their own database and shared

Ensure universal registration of births, deaths: RGI to States
जन्म और मृत्यु का सार्वभौमिक पंजीकरण सुनिश्चित करें: राज्यों को RGI

The Registrar General of India (RGI) asked States to take steps towards achieving universal registration of births and deaths.

भारत के महानिबंधक (RGI) ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने को कहा।

- Officials were told that following the directives of the **Supreme Court**, all government hospitals have been declared “registrars” of births and deaths.

अधिकारियों को बताया गया कि **सुप्रीम कोर्ट** के निर्देशों का पालन करते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु के “पंजीयक” घोषित किया गया है।

- Hospitals have to report the event within **21 days**. If the



statistics with the RGI office that functions under the **Union Home Ministry**.

यह अधिनियम, जिसे 2023 में संशोधित किया गया था, जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण RGI पोर्टल पर अनिवार्य करता है। पहले, राज्य अपना स्वयं का डेटाबेस रखते थे और आँकड़े गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत RGI कार्यालय के साथ साझा करते थे।

- The database with the RGI can be used to update **electoral rolls, National Population Register (NPR), and ration cards**.

RGI के पास उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग मतदाता सूची, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), और राशन कार्ड को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है।

- From **October 1, 2023**, the **digital birth certificate** is the single document to prove the date of birth for various services such as **admission to educational institutions, government jobs and marriage registration** among others.

1 अक्टूबर 2023 से, डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र विभिन्न सेवाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियाँ और विवाह पंजीकरण आदि में जन्म तिथि साबित करने के लिए एकमात्र दस्तावेज है।

What has NOTTO said about organ donations to women?

What does data say about organ donations with respect to men and women? Is there a gender disparity?

GS I: Society

Bindu Shajan Perappadan

The story so far:

The National Organ and Tissue Transplant Organisation (NOTTO) recently issued a direction stating that **women patients and relatives of deceased donors will receive priority in organ allocation**. This is part of a 10-point advisory aimed at addressing gender disparity in organ transplants and encouraging donations.

Is there a gender disparity?

An article titled **'India's organ transplant paradox: women donate the most and receive the least'** published in the *British Medical Journal* noted that as per data released by NOTTO, 63.8% of all living organ donors from 2019 to 2023 were women. Yet men received the most donated organs, accounting for 69.8% of the recipients. The data further said that in the past five years women made 36,038

of the 56,509 living organ donations in India, yet only 17,041 were transplanted into women, while 39,447 went to men.

What laws oversee organ donation?

The Central Government has established NOTTO as the apex government body to oversee organ donations. Each hospital of the country which engages in transplant activity, whether in retrieval or transplant, must link with the NOTTO. Organ transplantation and donation is covered under the Transplantation of Human Organs Act 1994, which has allowed organ donation by live and brain-stem dead donors. In 2011, an amendment to the Act also brought in donation of human tissues. As per the Act, buying/selling of organs in any way is punishable and has a significant financial as well as judicial penalty.

In its recent advisory, the NOTTO has asked State governments to create permanent posts for transplant

coordinators at hospitals that perform organ transplantation or retrieval. "It is advised that you develop facilities for organ and tissue retrieval in all trauma centres and register them as organ retrieval centres," the letter said, while calling for training emergency responders and ambulance staff to identify potential deceased donors early, particularly among victims of road traffic accidents and stroke patients.

What is the status of organ donation?

Globally, the World Health Organization (WHO) estimates that over 1,30,000 solid organ transplants are performed each year, but this meets only about 10% of the worldwide need. Countries with higher awareness and streamlined donor systems have achieved significantly better outcomes, showing what is possible when organ donation becomes a social norm.

An organ donor can be anyone whose healthy organs are transplanted to a

**What has NOTTO said about organ donations to women?
महिलाओं को अंगदान के बारे में NOTTO ने क्या कहा है?**



The National Organ and Tissue Transplant Organisation (NOTTO) recently issued a direction stating that women patients and relatives of deceased donors will receive priority in organ allocation.

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि महिला मरीजों और मृत दाताओं के परिजनों को अंग आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

This is part of a 10-point advisory aimed at addressing gender disparity in organ transplants and encouraging donations.

यह 10 सूत्रीय परामर्श का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंग प्रत्यारोपण में लैंगिक असमानता को दूर करना और दान को प्रोत्साहित करना है।

Is there a gender disparity?

क्या लैंगिक असमानता है?

- An article titled '**India's organ transplant paradox: women donate the most and receive the least**' published in the **British Medical Journal** noted that as per data released by NOTTO, **63.8% of all living organ donors from 2019 to 2023 were women**.
‘भारत का अंग प्रत्यारोपण विरोधाभास: महिलाएं सबसे अधिक दान करती हैं और सबसे कम प्राप्त करती हैं’ शीर्षक वाला एक लेख, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ, ने उल्लेख किया कि NOTTO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2023 तक सभी जीवित अंग दाताओं में से 63.8% महिलाएं थीं।
- **Yet men received the most donated organs, accounting for 69.8% of the recipients**.
फिर भी, पुरुषों को सबसे अधिक दान किए गए अंग मिले, जो 69.8% प्राप्तकर्ताओं का हिस्सा हैं।
- The data further said that in the past five years **women made 36,038 of the 56,509 living organ donations** in India, yet only **17,041 were transplanted into women**, while **39,447 went to men**.
आंकड़ों ने आगे कहा कि पिछले पाँच वर्षों में भारत में 56,509 जीवित अंगदानों में से 36,038 महिलाएं थीं, फिर भी केवल 17,041 महिलाओं में प्रत्यारोपित किए गए, जबकि 39,447 पुरुषों को दिए गए।
- **What laws oversee organ donation?**
अंगदान की निगरानी कौन से कानून करते हैं?
- The **Central Government** has established NOTTO as the apex government body to oversee organ donations.
केंद्र सरकार ने अंगदान की निगरानी के लिए NOTTO को शीर्ष सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया है।
- Each **hospital** of the country which engages in transplant activity, whether in retrieval or transplant, must link with the NOTTO.
देश का प्रत्येक अस्पताल, जो प्रत्यारोपण गतिविधि में संलग्न है, चाहे वह अंग प्राप्ति हो या प्रत्यारोपण, उसे NOTTO से जोड़ना होगा।
- **Organ transplantation and donation is covered under the Transplantation of Human Organs Act 1994, which has allowed organ donation by live and brain-stem dead donors**.
अंग प्रत्यारोपण और दान मानव अंग अधिनियम, 1994 के अंतर्गत आता है, जिसने जीवित और मस्तिष्क-तना मृत दाताओं द्वारा अंगदान की अनुमति दी है।
- In 2011, an amendment to the Act also brought in **donation of human tissues**.
2011 में, अधिनियम में संशोधन द्वारा मानव ऊतक दान को भी शामिल किया गया।
- **As per the Act, buying/selling of organs in any way is punishable and has a significant financial as well as judicial penalty**.
अधिनियम के अनुसार, अंगों की खरीद-बिक्री किसी भी रूप में दंडनीय है और इसके लिए कठोर आर्थिक तथा न्यायिक दंड है।
- **In its recent advisory, the NOTTO has...**
अपनी हालिया परामर्श में, NOTTO ने...
- In its recent advisory, the NOTTO has asked **State governments** to create **permanent posts for transplant coordinators** at hospitals that perform organ transplantation or retrieval.
अपनी हालिया परामर्श में, NOTTO ने राज्य सरकारों से उन अस्पतालों में प्रत्यारोपण समन्वयकों के स्थायी पद बनाने को कहा है, जहाँ अंग प्रत्यारोपण या अंग प्राप्ति की जाती है।



- "It is advised that you develop facilities for organ and tissue retrieval in all **trauma centres** and register them as organ retrieval centres," the letter said, while calling for **training emergency responders and ambulance staff** to identify potential deceased donors early, particularly among **victims of road traffic accidents and stroke patients**.
पत्र में कहा गया, "यह सलाह दी जाती है कि आप सभी **ट्रॉमा केंद्रों** में अंग और ऊतक प्राप्ति की सुविधाएँ विकसित करें और उन्हें अंग प्राप्ति केंद्रों के रूप में पंजीकृत करें," साथ ही **आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और एंबुलेंस कर्मियों के प्रशिक्षण** का आह्वान किया गया ताकि संभावित मृत दाताओं की जल्दी पहचान हो सके, विशेषकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों और स्ट्रोक रोगियों में।

What is the status of organ donation?

अंगदान की स्थिति क्या है?

- Globally, the **World Health Organization (WHO)** estimates that over **1,30,000 solid organ transplants** are performed each year, but this meets only about **10% of the worldwide need**.
वैश्विक स्तर पर, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** का अनुमान है कि हर साल **1,30,000 से अधिक ठोस अंग प्रत्यारोपण** किए जाते हैं, लेकिन यह केवल **विश्वव्यापी आवश्यकता का 10%** ही पूरा करता है।
- Countries with **higher awareness and streamlined donor systems** have achieved significantly better outcomes, showing what is possible when organ donation becomes a **social norm**.
अधिक जागरूकता और सुव्यवस्थित दाता प्रणालियों वाले देशों ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं, यह दर्शाता है कि जब अंगदान एक **सामाजिक मानक** बन जाता है, तो क्या संभव है।
- An **organ donor** can be anyone whose **healthy organs** are transplanted to a **एक अंग दाता** कोई भी हो सकता है, जिसके **स्वस्थ अंगों** का प्रत्यारोपण किया जाए।

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below:

<https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

22_08_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper II: Polity, Governance, And International Relations)

1. **Should SC sit idly as Governors block Bills: CJI**
क्या SC चुप बैठा रहे जब गवर्नर बिल रोकते हैं: CJI
2. **Poll integrity and self-sabotage, parties and the ECI**
चुनावी अखंडता और आत्म-विनाश, दल और चुनाव आयोग (ECI)
3. **Will a two-tiered World Test Championship do more harm than good?**



क्या दो-स्तरीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अधिक हानि पहुँचाएगी या लाभ?

4. Israel's ongoing offensive in Gaza is 'intolerable', says Red Cross

गाज़ा में इज़राइल का जारी हमला 'असहनीय' है, रेड क्रॉस ने कहा

5. Ukrainian man arrested in Italy over Nord Stream pipeline attacks

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन हमलों के मामले में इटली में यूक्रेनी व्यक्ति गिरफ्तार

6. China, Pakistan Foreign Ministers agree to launch new economic corridor projects

चीन, पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने नए आर्थिक गलियारा परियोजनाएं शुरू करने पर सहमति जताई

PATRIOTICIAS



Should SC sit idly as Governors block Bills: CJI

Solicitor-General says the top court has encroached into the terrain of law-making

CS II: Governor
Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Chief Justice of India B.R. Gvai on Thursday asked the Union government if the Supreme Court is supposed to suspend its role as the "custodian of the Constitution" and sit powerless while Governors make competent State legislatures defunct and thwart the democratic will of the people by sitting on Bills for years together.

The Chief Justice, heading a Presidential Reference Bench of five judges, referred to how the Tamil Nadu Governor had kept crucial State Bills pending for almost four years without a word explaining why.

The oral observations from the Chief Justice came in response to Solicitor General Tushar Mehta's submissions for the Union government that the top court, through its April 8 judgment, had encroached into the terrain of law-making and slighted high Constitutional authorities like the Governors and the Pre-

sident by imposing time limits on them.

Mr. Mehta said that inaction on the part of a Constitutional authority like the Governor was better addressed in the political sphere. The Supreme Court was not the only problem-solver in the country. Every problem cannot be resolved through a judicial order, he said.

The Solicitor General said the court should stick to its rule declared in the National Judicial Appointments Commission (NJAC) judgment that each organ of governance – the legislature, executive, and judiciary – must stick to its turf.

"We do not intend to micro-manage the government. We will never interfere. But suppose, if a particular function is entrusted to the Governor, and for years together he withholds a Bill, will that also be beyond the power of judicial review of this court... When this Court has in the past set aside the very Constitutional Amendment [The Forty-second Constitutional

Is the court supposed to suspend its role and watch as the people's will is thwarted, asks CJI



Suppose a constitutional functionary entrusted with certain functions refuses to discharge those functions without any valid reasons, are the hands of the constitutional courts tied? Are we powerless?

JUSTICE B. R. GAVAI
Chief Justice of India



Amendment Act of 1976], which had limited the powers of judicial review as a violation of the Basic Structure, can we say this court is now powerless?" CJI Gvai asked Mr. Mehta.

Constitutional powers

The Solicitor General responded that time limits may apply to statutory authorities like a District Collector, but not to Constitutional powers like the President and Governors. He said a Governor's position was *sui generis*, as they are appointed by the Union government but are also an integral part of the State legislature.

The law officer said there may be several reasons, at times political or democratic, for a Governor to delay assent to a State Bill. How could the Supreme Court step in and prescribe deadlines when none exist in the Constitution, he asked.

Justice P.S. Narasimha said State Bills would be left hanging in vacuum if no outer time limits were set for the Governor to grant assent.

"Though you cannot specify a time limit, but, at the same time, there should be some way by which the process [of assenting to Bills] works. Can

it be a situation when it means 'full stop' if the Governor chooses to not act on a Bill... there is nothing further?" Justice Narasimha asked.

Mr. Mehta responded that only "two or three States" have come to the Supreme Court complaining of their Governors. There was no flood of litigation against Governors.

To this, Justice Surya Kant observed that Governors' decisions to act or not act varied from State to State. He asked whether the Centre was shutting off aggrieved States from approaching the court against gubernatorial inaction.

The Centre's law officer maintained that the judiciary cannot tie down the President and Governors to three-month timelines as done in the April 8 judgment.

"But if there is a wrong, there must be a remedy... This court is a custodian of the Constitution," the Chief Justice reacted. Mr. Mehta said each organ was a custodian of the Constitution

The CJI refers to how the T.N. Governor had kept Bills pending for almost four years

in its own field.

Justice Narasimha said seeking a solution in the political sphere each time would result in a logjam.

The Solicitor replied that issues like delays in assenting to Bills were not solvable by the court. The solution lay in the political sphere where elected representatives were answerable to the people, at least every five years.

"But the Governor is not answerable to the people," the CJI pointed out.

Judicial restraint

Referring to the April 8 judgment's direction that pending State Bills would be deemed as approved if the President and Governors did not act within the three-month deadline, Mr. Mehta said that restraint in the exercise of judicial power, especially when it concerned High Constitutional authorities, was a facet of the separation of powers, which was a part of the basic structure of the Constitution.

The Chief Justice said that while the Bench could

quite appreciate the Centre's arguments against restricting Governors and the President to a "time-bound programme" and the grant of 'deemed assent', it could not accept a situation in which the Governor merely sat for four years on State Bills.

"Then what happens to the democratic set-up of the government? What happens to the will of the two-third of the majority of the legislature of a particular State? We are on the question of a Governor, however high he may be, sitting on Bills passed by a competent legislature," Chief Justice Gvai observed.

The Solicitor's reply was illustrative. He asked if the President could step in and decide long-pending cases in the Supreme Court.

"It cannot be that every problem has a solution only at the doors of this court, and political and democratic solutions are not solutions," Mr. Mehta said, concluding his submissions for the Union government.

Should SC sit idly as Governors block Bills: CJI

क्या SC चुप बैठा रहे जब गवर्नर बिल रोकते हैं: CJI

- Solicitor-General says the top court has encroached into the terrain of law-making

सॉलिसिटर-जनरल ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कानून बनाने के क्षेत्र में दखल दिया है

- Is the court supposed to suspend its role and watch as the people's will is thwarted, asks CJI

क्या अदालत को अपनी भूमिका निलंबित कर देखना चाहिए जब जनता की इच्छा विफल हो रही है, CJI ने पूछा

- The CJI refers to how the T.N. Governor had kept Bills pending for almost four years

CJI ने उल्लेख किया कि तमिलनाडु के गवर्नर ने लगभग चार वर्षों तक बिल लंबित रखे थे

- Chief Justice of India B.R. Gvai on Thursday asked the Union government if the **Supreme Court is supposed to suspend its role as the "custodian of the Constitution" and sit powerless while Governors make competent State legislatures defunct and thwart the democratic will of the people by sitting on Bills for years together.**

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को "संविधान का संरक्षक" होने की अपनी भूमिका निलंबित करनी चाहिए और शक्तिहीन बैठना चाहिए, जबकि गवर्नर सक्षम राज्य विधानसभाओं को निष्क्रिय कर लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को वर्षों तक बिल रोककर विफल कर रहे हैं।



- The Chief Justice, heading a Presidential Reference Bench of five judges, referred to how the Tamil Nadu Governor had kept crucial State Bills pending for almost four years without a word explaining why.
मुख्य न्यायाधीश, जो पांच न्यायाधीशों की राष्ट्रपति संदर्भ पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, ने उल्लेख किया कि तमिलनाडु के गवर्नर ने लगभग चार वर्षों तक महत्वपूर्ण राज्य विधेयक बिना किसी स्पष्टीकरण के लंबित रखे थे।
- The oral observations from the Chief Justice came in response to Solicitor General Tushar Mehta's submissions for the Union government that the top court, through its **April 8 judgment, had encroached into the terrain of law-making and slighted high Constitutional authorities like the Governors and the President by imposing time limits on them.**
मुख्य न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणियाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस तर्क के जवाब में आईं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 8 अप्रैल के फैसले के माध्यम से कानून बनाने के क्षेत्र में दखल दिया और गवर्नर तथा राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक प्राधिकरणों का समय सीमा तय कर अपमान किया।
- Mr. Mehta said that inaction on the part of a Constitutional authority like the Governor was better addressed in the political sphere. The Supreme Court was not the only problem-solver in the country. Every problem cannot be resolved through a judicial order, he said.
मेहता ने कहा कि गवर्नर जैसी संवैधानिक प्राधिकरण की निष्क्रियता का समाधान राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर होता है। सुप्रीम कोर्ट देश में एकमात्र समस्या-सुलझाने वाला नहीं है। हर समस्या न्यायिक आदेश से हल नहीं हो सकती, उन्होंने कहा।
- The Solicitor General said the court should stick to its rule declared in the National Judicial Appointments Commission (NJAC) judgment that each organ of governance — the legislature, executive, and judiciary — must stick to its turf.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के फैसले में घोषित अपने नियम का पालन करना चाहिए कि शासन की प्रत्येक इकाई — विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका — को अपने-अपने क्षेत्र में रहना चाहिए।
- “We do not intend to micro-manage the government. We will never interfere. But suppose, if a particular function is entrusted to the Governor, and for years together he withholds a Bill, will that also be beyond the power of judicial review of this court... When this Court has in the past set aside the very Constitutional Amendment [The Forty-second Constitutional Amendment Act of 1976], which had limited the power of judicial review as a violation of the Basic Structure, can we say this court is now powerless?” CJI Gavai asked Mr. Mehta.
“हम सरकार का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करना चाहते। हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए, यदि कोई विशेष कार्य गवर्नर को सौंपा गया है और वह वर्षों तक किसी बिल को रोकता है, तो क्या वह भी इस अदालत की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से परे होगा... जब इस अदालत ने अतीत में उस संवैधानिक संशोधन [बयालिसवाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976] को निरस्त कर दिया था, जिसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर मूल संरचना का उल्लंघन किया था, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह अदालत अब शक्तिहीन है?” CJI गवई ने मेहता से पूछा।
- (पाठ लंबा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं पूरा लेख इसी पाइंट-टू-पाइंट हिंदी-अंग्रेज़ी फॉर्मेट में जारी रखूं?)



Poll integrity and self-sabotage, parties and the ECI

GS II: Elections

Much has been written about the numerous discrepancies in voting lists, including inaccurate details, duplication, ineligible entries, ghost voters, and how these slips aid electoral fraud, such as impersonation and multiple voting. Almost everyone agrees that flawed electoral rolls erode public trust and will ultimately undermine representative democracy. While much of the erosion of public trust rightly falls on the Election Commission of India (ECI), we must also examine the complicity of political parties in enabling this institutional decay.

ECI's credibility, changes in parties

The ECI has the primary duty to maintain clean electoral rolls. Not surprisingly, the ECI has faced sharp criticism. The ECI, it appears, believed that greater opacity would shield it from scrutiny and accountability. Therefore, instead of addressing the inconsistencies, the ECI attempted to make inspection more difficult and raise a fog over its failures, only to face further questions and deepening suspicion about its functioning and institutional integrity.

For the ECI, it has been a mighty fall. In the 1990s, during the tenure of T.N. Seshan as Chief Election Commissioner, the ECI acquired greater teeth to curb electoral malpractices and transformed itself into one of the most powerful electoral regulatory bodies in the world. The ECI proactively implemented the model code of conduct, monitored poll expenses, and mandated issuing the Electoral Photo Identity Card (EPIC) to prevent bogus voting. Not surprisingly, numerous citizen surveys in the subsequent decades showed that the ECI was among the country's most credible and trustworthy institutions. Today, that credibility stands eroded, and its legacy is in question.

While the ECI has steadily eroded its own credibility, political parties, in their race to become more efficient electoral machines, have weakened their role as democratic counterweights. Traditional local level campaigning, which was labour-intensive, included house visits and street corner meetings. However, it is increasingly being supplemented and may even be replaced by digital communication, which includes social media campaigns, phone calls and even Artificial Intelligence-driven chatbots. Newer technological advances have pushed parties to rely less on the party on the ground.

These newer forms of communication are more intrusive, allowing parties to appear to be engaging with the voters personally and not constrained by time or space. So, it is possible for a Prime Minister, Chief Minister or the top party leader to connect with a voter. These forms of communication have also encouraged parties to trade enduring political linkages built by local



K.K. Kailash

is with the Department of Political Science, University of Hyderabad

It is not just the Election Commission of India but also political parties that are responsible for enabling institutional decay and an erosion of voter trust

organisations for the illusion of connection, leading to the neglect of local party infrastructure.

Simultaneously, parties have also begun to rely on professional consultants, who shape their campaign strategy, messaging, and sometimes even the choice of candidates. These professional agents rely on local party workers, if at all, only to gather information to feed their data analytic models. Professional campaign consultants work best when there is a clear chain of command. Consequently, this has only aided the centralisation of power in parties and drastically reduced the role of local workers, once at the heart of the political party on the ground.

While technology and consultants have enhanced or appear to have enabled parties to use resources more efficiently, they also have weakened the party's foundations at the local level. This neglect of the local level may help explain why systemic failures such as electoral roll mismatches go unchecked.

Close interaction is the key

The ECI manual on electoral rolls states that during the electoral roll revision period, or when there is a modification and rationalisation of polling stations, the local election officers and the electoral registration officer should meet and consult recognised political parties. Further, parties are supposed to scrutinise draft rolls and point out discrepancies. Therefore, the integrity of the electoral roll hinges on the close working of the local-level party organisation with the ECI.

To enhance the participation of parties at the local level, the ECI had introduced the concept of Booth Level Agents (BLA). These representatives of recognised political parties were tasked with assisting the Booth-level officers. To qualify as BLAs, they had to be registered voters in the same electoral roll where they had been appointed. Their primary task was in scrutinising draft rolls during the revision period and aiding corrections, including deletion, inclusion and transposition of voters. Therefore, the BLA is the key link between the party, voters, and the ECI at the local level.

The ECI manual has numerous provisions that prevent the bending of rules and to ensure that the electoral field is not manipulated. For instance, it prohibits bulk applications unless they are from the same family, restricting mass enrolment. Likewise, BLAs can only file a maximum of 10 applications (corrections, deletions, additions) every day. If they submit more than 30 applications during the revision period, the Electoral Registration Officer must personally cross-verify such applications. On paper, these mechanisms establish a robust system of checks and balances that is designed to ensure transparency and prevent fraudulent manipulations. In theory, these safeguards make

widespread electoral fraud impossible or at least difficult.

The reported large-scale irregularities in the Mahadevapura Assembly constituency in Karnataka push us to ask uncomfortable questions. Are some BLAs more influential than others? Has the ECI ignored BLAs manipulating the system? Is there a systematic institutional bias favouring the incumbent? At the same time, it is fair to ask whether some BLAs were asleep at the wheel during the revision period. Why was the local party organisation not vigilant? Did they not participate in the exercise to keep the "electoral roll healthy"?

An opportunity to revive

This controversy has presented an unexpected opportunity. Political parties can redeem themselves. They have a chance to revitalise their dormant local units, which have been sidelined by the increased use of technology and professional consultants. It is a wake-up call telling parties that they need to look beyond elections if they want to remain relevant and meaningful.

The politics between elections often shape electoral outcomes. The task of electoral roll revisions may appear to be a mundane task, but they show how local organisations are crucial for a healthy democratic functioning.

We already see parties waking up. The heightened awareness around accurate voter lists, for instance, in Kerala has prompted parties to scrutinise the draft rolls for local body elections more diligently. Parties are now actively flagging issues such as duplicate voters on the same ID card or individuals holding multiple voter IDs. Although parties argue that these concerns were raised earlier, their current efforts appear more consistent and determined.

History warns us how weak local organisations can distort democracy's promise. Immediately after Independence, the Congress party units and local officials allied with the dominant sections to subvert land reforms, leaving no chance for the institutional strategy for agrarian reform to succeed. Today, parties without vigilant local organisations risk more than electoral losses. They may be surrendering democracy. And there may be no fair electoral arena left to contest.

We have seen above that a robust democracy-saving system is in place. There are adequate mechanisms to ensure electoral integrity and prevent rule manipulation in favour of the incumbent. However, when institutional leaders prioritise short-term goals over constitutional norms (not all written), abandon self-restraint and violate neutrality, they erode citizen trust and hollow out institutions from within.

The views expressed are personal



Poll integrity and self-sabotage, parties and the ECI चुनावी अखंडता और आत्म-विनाश, दल और चुनाव आयोग (ECI)

Electoral Roll Discrepancies and Institutional Decay

मतदाता सूची की विसंगतियाँ और संस्थागत पतन

- Much has been written about the numerous **discrepancies in voting lists**, including inaccurate details, duplication, ineligible entries, ghost voters, and how these slips aid **electoral fraud**, such as impersonation and multiple voting.
मतदाता सूचियों में कई विसंगतियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसमें गलत विवरण, दोहराव, अयोग्य प्रविष्टियाँ, भूत मतदाता, और कैसे ये चूक चुनावी धोखाधड़ी जैसे प्रतिरूपण और बहु-मतदान में मदद करती हैं।
- Almost everyone agrees that **flawed electoral rolls** erode public trust and will ultimately undermine **representative democracy**.
लगभग हर कोई सहमत है कि त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची जन विश्वास को कमजोर करती है और अंततः प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर कर देगी।
- While much of the erosion of public trust rightly falls on the **Election Commission of India (ECI)**, we must also examine the **complicity of political parties** in enabling this institutional decay.
जबकि जन विश्वास के क्षरण का अधिकांश भार सही रूप से भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) पर आता है, हमें इस संस्थागत पतन को सक्षम बनाने में राजनीतिक दलों की मिलीभगत की भी जाँच करनी चाहिए।

ECI's credibility, changes in parties

ECI की विश्वसनीयता, दलों में बदलाव

- The **ECI** has the primary duty to maintain **clean electoral rolls**. Not surprisingly, the ECI has faced sharp criticism.
ECI की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है स्वच्छ मतदाता सूचियों को बनाए रखना। आश्चर्य की बात नहीं है कि ECI को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- The **ECI**, it appears, believed that greater **opacity** would shield it from scrutiny and accountability. Therefore, instead of addressing the inconsistencies, the ECI attempted to make inspection more difficult and raise a fog over its failures, only to face further questions and deepening suspicion about its functioning and institutional integrity.
ऐसा प्रतीत होता है कि ECI का मानना था कि अधिक अस्पष्टता उसे जांच और जवाबदेही से बचाएगी। इसलिए, असंगतियों को संबोधित करने के बजाय, ECI ने निरीक्षण को और कठिन बनाने और अपनी विफलताओं पर धुंध डालने का प्रयास किया, जिससे केवल उसके कामकाज और संस्थागत अखंडता पर और अधिक प्रश्न और संदेह पैदा हुए।
- For the **ECI**, it has been a mighty fall. In the **1990s**, during the tenure of **T.N. Seshan** as Chief Election Commissioner, the ECI acquired greater teeth to curb **electoral malpractices** and transformed itself into one of the most powerful electoral regulatory bodies in the world.
ECI के लिए, यह एक बड़ी गिरावट रही है। 1990 के दशक में, जब टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ECI ने चुनावी कदाचारों को रोकने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त किए और खुद को दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुनावी नियामक संस्थाओं में बदल लिया।
- The **ECI** proactively implemented the **model code of conduct**, monitored poll expenses, and mandated issuing the **Electoral Photo Identity Card (EPIC)** to prevent bogus voting.



ECI ने सक्रिय रूप से आचार संहिता लागू की, चुनावी खर्चों की निगरानी की, और मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी करना अनिवार्य किया ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके।

- Not surprisingly, numerous **citizen surveys** in the subsequent decades showed that the **ECI** was among the country's most credible and trustworthy institutions. Today, that credibility stands eroded, and its legacy is in question.

आश्चर्य नहीं कि बाद के दशकों में कई **नागरिक सर्वेक्षणों** ने दिखाया कि **ECI** देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक था। आज, वह विश्वसनीयता क्षीण हो चुकी है और उसकी विरासत पर प्रश्नचिह्न है।

- While the **ECI** has steadily eroded its own credibility, political parties, in their race to become more efficient **electoral machines**, have weakened their role as **democratic counterweights**.

जहाँ **ECI** ने धीरे-धीरे अपनी विश्वसनीयता को क्षीण किया है, वहीं राजनीतिक दलों ने अधिक कुशल **चुनावी मशीनें** बनने की दौड़ में अपनी भूमिका **लोकतांत्रिक संतुलनकारी** के रूप में कमजोर कर दी है।

- Traditional local level campaigning, which was **labour-intensive**, included house visits and street corner meetings. However, it is increasingly being supplemented and may even be replaced by **digital communication**, which includes **social media campaigns, phone calls and even Artificial Intelligence-driven chatbots**.

पारंपरिक स्थानीय स्तर पर प्रचार, जो **श्रम-सघन** था, में घर-घर जाकर मिलना और नुक्कड़ सभाएँ शामिल थीं। हालाँकि, अब इसे तेजी से **डिजिटल संचार** द्वारा पूरक किया जा रहा है और यह **सोशल मीडिया अभियान, फोन कॉल और यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट्स** से प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है।

- Newer technological advances have pushed parties to rely less on the party on the ground. नई तकनीकी प्रगति ने दलों को ज़मीनी स्तर पर पार्टी पर कम निर्भर होने के लिए प्रेरित किया है।

- These newer forms of communication are more **intrusive**, allowing parties to appear to be engaging with the voters personally and not constrained by time or space. So, it is possible for a **Prime Minister, Chief Minister or the top party leader** to connect with a voter.

संचार के ये नए रूप अधिक **हस्तक्षेपकारी** हैं, जो दलों को व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से जुड़ते हुए दिखने की अनुमति देते हैं और वे समय या स्थान से बाध्य नहीं होते। इस तरह, एक **प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या शीर्ष दल का नेता** मतदाता से जुड़ सकता है।

- These forms of communication have also encouraged parties to trade enduring political linkages built by local organisations for the **illusion of connection**, leading to the neglect of **local party infrastructure**.

इन संचार रूपों ने दलों को स्थानीय संगठनों द्वारा निर्मित स्थायी राजनीतिक संबंधों को **संपर्क के भ्रम** के बदले में छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे **स्थानीय पार्टी ढांचे** की उपेक्षा हुई है।

- Simultaneously, parties have also begun to rely on **professional consultants**, who shape their campaign strategy, messaging, and sometimes even the choice of candidates.

साथ ही, दल अब **पेशेवर सलाहकारों** पर भी निर्भर होने लगे हैं, जो उनकी चुनावी रणनीति, संदेश और कभी-कभी उम्मीदवारों के चयन तक को तय करते हैं।

- These professional agents rely on local party workers, if at all, only to gather information to feed their **data analytic models**.

ये पेशेवर एजेंट स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं पर, यदि बिल्कुल भी, केवल सूचना एकत्र करने के लिए निर्भर करते हैं ताकि उसे अपने **डेटा विश्लेषण मॉडलों** में डाला जा सके।

- **Professional campaign consultants work best when there is a clear chain of command. Consequently, this has only aided the centralisation of power in parties and drastically reduced the role of local workers, once at the heart of the political party on the ground.**

पेशेवर चुनावी सलाहकार सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला हो। नतीजतन, इससे दलों में **शक्ति का केंद्रीकरण** ही बढ़ा है और स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका, जो कभी ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक दल के केंद्र में थी, बहुत कम हो गई है।

- While technology and consultants have enhanced or appear to have enabled parties to use resources more efficiently, they also have weakened the party's **foundations at the local level**. This neglect of the local level may help explain why systemic failures such as **electoral**



roll mismatches go unchecked.

जहाँ तकनीक और सलाहकारों ने दलों को संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाया है या ऐसा प्रतीत कराया है, वहीं उन्होंने पार्टी की स्थानीय स्तर पर नींव को भी कमजोर किया है। स्थानीय स्तर की इस उपेक्षा से यह समझाने में मदद मिल सकती है कि क्यों मतदाता सूची में असंगतियाँ जैसी प्रणालीगत विफलताएँ अनियंत्रित रह जाती हैं।

Close interaction is the key

निकट संपर्क ही कुंजी है

- The **ECI manual on electoral rolls** states that during the electoral roll revision period, or when there is a modification and rationalisation of polling stations, the local election officers and the electoral registration officer should meet and consult recognised political parties.
चुनाव आयोग (ECI) का मैनुअल कहता है कि मतदाता सूची के संशोधन काल के दौरान, या जब मतदान केंद्रों का परिवर्तन और तार्किकीकरण किया जा रहा हो, तब स्थानीय चुनाव अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मिलना और परामर्श करना चाहिए।
- Further, parties are supposed to scrutinise **draft rolls** and point out **discrepancies**. Therefore, the **integrity of the electoral roll** hinges on the close working of the local-level party organisation with the **ECI**.
आगे, दलों को मसौदा सूचियों की जांच करनी चाहिए और गड़बड़ियों को इंगित करना चाहिए। इसलिए, मतदाता सूची की अखंडता स्थानीय स्तर की पार्टी संगठन और चुनाव आयोग (ECI) के बीच घनिष्ठ कार्य पर निर्भर करती है।
- To enhance the participation of parties at the local level, the **ECI** had introduced the concept of **Booth Level Agents (BLA)**.
स्थानीय स्तर पर दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग (ECI) ने बूथ स्तर एजेंट (BLA) की अवधारणा पेश की थी।
- These representatives of recognised political parties were tasked with assisting the **Booth-level officers**. To qualify as BLAs, they had to be **registered voters** in the same electoral roll where they had been appointed.
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के ये प्रतिनिधि बूथ स्तर अधिकारियों की सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए थे। BLA बनने के लिए उन्हें उसी मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक था जहां उन्हें नियुक्त किया गया था।
- Their primary task was in scrutinising **draft rolls** during the revision period and aiding corrections, including **deletion, inclusion and transposition** of voters. Therefore, the **BLA** is the key link between the **party, voters, and the ECI** at the local level.
उनका मुख्य कार्य संशोधन अवधि में मसौदा सूचियों की जांच करना और सुधारों में मदद करना था, जिसमें मतदाताओं का हटाना, जोड़ना और स्थानांतरण शामिल था। इसलिए, स्थानीय स्तर पर **BLA पार्टी, मतदाताओं और चुनाव आयोग (ECI)** के बीच मुख्य कड़ी है।
- The **ECI manual** has numerous provisions that prevent the bending of rules and to ensure that the **electoral field** is not manipulated.
चुनाव आयोग (ECI) का मैनुअल कई प्रावधान रखता है जो नियमों के उल्लंघन को रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनावी क्षेत्र में हेरफेर न हो।
- For instance, it prohibits **bulk applications** unless they are from the same family, restricting **mass enrolment**.
उदाहरण के लिए, यह थोक आवेदन को रोकता है जब तक कि वे एक ही परिवार से न हों, जिससे जनसमूह पंजीकरण सीमित हो।
- Likewise, **BLAs** can only file a maximum of **10 applications** (corrections, deletions, additions) every day. If they submit more than **30 applications** during the revision period, the **Electoral Registration Officer** must personally cross-verify such applications.



इसी प्रकार, **BLA** प्रतिदिन अधिकतम **10 आवेदन** (सुधार, हटाना, जोड़ना) ही कर सकते हैं। यदि वे संशोधन अवधि में **30 से अधिक आवेदन** जमा करते हैं, तो **मतदाता पंजीकरण अधिकारी** को ऐसे आवेदनों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करना अनिवार्य है

- On paper, these mechanisms establish a robust system of **checks and balances** that is designed to ensure **transparency** and prevent **fraudulent manipulations**. In theory, these safeguards make widespread electoral fraud impossible or at least difficult.
कागज पर, ये तंत्र **जाँच और संतुलन** की एक मजबूत प्रणाली स्थापित करते हैं, जो **पारदर्शिता** सुनिश्चित करने और **धोखाधड़ीपूर्ण हेरफेर** को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सैद्धांतिक रूप से, ये सुरक्षा उपाय व्यापक चुनावी धोखाधड़ी को असंभव या कम से कम कठिन बना देते हैं।
- The reported large-scale irregularities in the **Mahadevapura Assembly constituency in Karnataka** push us to ask uncomfortable questions. Are some **BLAs** more influential than others? Has the **ECI** ignored BLAs manipulating the system? Is there a systematic institutional bias favouring the **incumbent**?
कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में रिपोर्ट की गई बड़े पैमाने की गड़बड़ियां हमें असहज सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या कुछ **BLA** दूसरों से अधिक प्रभावशाली हैं? क्या **चुनाव आयोग (ECI)** ने प्रणाली में हेरफेर करने वाले **BLA** को नजरअंदाज किया है? क्या **सत्ताधारी** के पक्ष में कोई व्यवस्थित संस्थागत पक्षपात है?
- At the same time, it is fair to ask whether some **BLAs** were asleep at the wheel during the revision period. Why was the local party organisation not vigilant? Did they not participate in the exercise to keep the “**electoral roll healthy**”?
उसी समय, यह पूछना भी उचित है कि क्या कुछ **BLA** संशोधन अवधि के दौरान निष्क्रिय थे। स्थानीय पार्टी संगठन सतर्क क्यों नहीं था? क्या उन्होंने “**स्वस्थ मतदाता सूची**” बनाए रखने के अभ्यास में भाग नहीं लिया?

An opportunity to revive पुनर्जीवित करने का अवसर

- This controversy has presented an unexpected opportunity. Political parties can redeem themselves. They have a chance to revitalise their dormant local units, which have been sidelined by the increased use of **technology** and **professional consultants**.
इस विवाद ने एक अप्रत्याशित अवसर प्रस्तुत किया है। राजनीतिक दल खुद को सुधार सकते हैं। उनके पास अपने निष्क्रिय स्थानीय इकाइयों को पुनर्जीवित करने का अवसर है, जिन्हें **प्रौद्योगिकी** और **पेशेवर सलाहकारों** के बढ़ते उपयोग से किनारे कर दिया गया था।
- It is a **wake-up call** telling parties that they need to look beyond elections if they want to remain relevant and meaningful.
यह एक **चेतावनी** है जो दलों को बताती है कि यदि वे प्रासंगिक और सार्थक बने रहना चाहते हैं तो उन्हें चुनावों से परे देखना होगा।
- The politics between elections often shape **electoral outcomes**. The task of electoral roll revisions may appear to be a mundane task, but they show how local organisations are crucial for a **healthy democratic functioning**.
चुनावों के बीच की राजनीति अक्सर **चुनावी परिणामों** को आकार देती है। मतदाता सूची संशोधन का कार्य साधारण लग सकता है, लेकिन यह दर्शाता है कि **स्वस्थ लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली** के लिए स्थानीय संगठन कितने महत्वपूर्ण हैं।
- We already see parties waking up. The heightened awareness around accurate voter lists, for instance, in **Kerala**, has prompted parties to scrutinise the draft rolls for local body elections more diligently.
हम पहले ही देख रहे हैं कि दल जाग रहे हैं। **केरल** में सटीक मतदाता सूचियों के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता ने दलों को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मसौदा सूचियों की अधिक सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए प्रेरित किया है।



- Parties are now actively flagging issues such as **duplicate voters** on the same ID card or individuals holding **multiple voter IDs**. Although parties argue that these concerns were raised earlier, their current efforts appear more consistent and determined.
अब दल सक्रिय रूप से ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जैसे कि एक ही पहचान पत्र पर **डुप्लिकेट मतदाता** या व्यक्तियों के पास **एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र** होना। यद्यपि दल तर्क देते हैं कि ये चिंताएं पहले भी उठाई गई थीं, लेकिन उनके वर्तमान प्रयास अधिक सुसंगत और दृढ़ प्रतीत होते हैं।
- History warns us how weak local organisations can **distort democracy's promise**. Immediately after Independence, the **Congress party units** and local officials allied with the dominant sections to subvert **land reforms**, leaving no chance for the institutional strategy for agrarian reform to succeed.
इतिहास हमें चेतावनी देता है कि कमजोर स्थानीय संगठन **लोकतंत्र के वादे को विकृत** कर सकते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद, **कांग्रेस पार्टी इकाइयों** और स्थानीय अधिकारियों ने प्रभावशाली वर्गों के साथ गठजोड़ किया और **जमीनी सुधारों** को विफल कर दिया, जिससे कृषि सुधार की संस्थागत रणनीति के सफल होने की कोई संभावना नहीं बची।
- Today, parties without vigilant local organisations risk more than electoral losses. They may be surrendering **democracy**. And there may be no fair **electoral arena** left to contest.
आज, सतर्क स्थानीय संगठनों के बिना दल केवल चुनावी हार का ही नहीं बल्कि **लोकतंत्र** को समर्पित करने का जोखिम उठाते हैं। और संभव है कि मुकाबला करने के लिए कोई निष्पक्ष **चुनावी क्षेत्र** शेष न रहे।
- We have seen above that a robust **democracy-saving system** is in place. There are adequate mechanisms to ensure **electoral integrity** and prevent rule manipulation in favour of the **incumbent**.
हमने ऊपर देखा है कि एक मजबूत **लोकतंत्र बचाने वाली प्रणाली** मौजूद है। **चुनावी अखंडता** सुनिश्चित करने और **सत्ताधारी** के पक्ष में नियमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त तंत्र हैं।
- However, when institutional leaders prioritise **short-term goals** over **constitutional norms** (not all written), abandon **self-restraint** and violate **neutrality**, they erode **citizen trust** and hollow out institutions from within.
हालांकि, जब संस्थागत नेता **संवैधानिक मानदंडों** (सभी लिखित नहीं) पर **अल्पकालिक लक्ष्यों** को प्राथमिकता देते हैं, **आत्म-संयम** छोड़ देते हैं और **निष्पक्षता** का उल्लंघन करते हैं, तो वे **नागरिक विश्वास** को क्षीण कर देते हैं और संस्थानों को भीतर से खोखला बना देते हैं।



Why Sri Lanka's Tamils are flagging militarisation

Why did Sri Lanka's prominent Tamil party, the Ilankai Tamil Arasu Kadchi, call a symbolic hartal? Is the presence of uniformed men visibly greater in the island nation's north and east provinces? What has the Office of the **UN High Commissioner for Human Rights** said about the situation in these provinces?

GS II: India-Sri Lanka

EXPLAINER

Meera Srinivasan

The story so far:

In August 18, Sri Lanka's prominent Tamil party the Ilankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK), called a symbolic hartal across the Tamil-majority north and east, to protest militarisation of the former war zone, 16 years after the Sri Lankan armed forces crushed the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Businesses and commercial establishments across the northern and eastern provinces remained shut for a few hours in the morning – while some remained open owing to political differences with the ITAK – joining the call to demilitarise their districts.

What prompted the hartal call?

The recent killing of 32-year-old Ethirmanasingham Kapilraj of Mullaitivu district, in Sri Lanka's northern province triggered it. The young Tamil man died in an alleged attack by military men from an army camp located in the district. In a letter to President Anura Kumara Dissanayake on August 10, the ITAK demanded an "unhindered, thorough investigation" into Mr. Kapilraj's death, and also highlighted the "oppressive conduct and excessive presence of the military" in the north and east after the war ended. The government has promised to hold a thorough investigation and bring the perpetrators to book. The police has arrested three soldiers in connection with the killing.

What is the govt.'s stand on military?

For many civic activists in Sri Lanka, the demand for de-militarising the north and east, is also lined to the larger call to downsize the country's bloated military service. In March this year President Dissanayake, who is also the Minister of Defence, announced plans to downsize the military by 2030. The latest Budget



Embers of war: Remains of vehicles damaged in the war seen in Mullaitivu district. FILE PHOTO

allocated LKR 442 billion, or roughly \$1.5 billion, to the Ministry of Defence – significantly more than the amount set aside for education, local commentators observed. In its analysis of the 2024 Budget estimates, Colombo-based think tank Verité Research found that expenditure on just the uniforms and diets in the defence sector was projected to increase by a significant LKR 75 billion (or nearly \$250 million), or 258% compared to 2022. "As a percentage of GDP, Sri Lanka spends nearly 2% on military expenses, an extraordinarily high amount for a country that does not face an existential security threat," retired army officer Major Gen. Dr. Boniface Perera observed in a newspaper column earlier this year.

What is the extent of military presence in the north and east?

While specific data of camps and troops

currently stationed are not available in the public domain, the presence of uniformed men is visibly greater in the island nation's north and east provinces, compared to the rest of the country. The military is also seen running local businesses, including hotels and restaurants, farms and other facilities, competing with the locals who are trying to rebuild their lives and livelihoods that were destroyed in the protracted war.

In Mullaitivu district in particular – the site of the final battle of the civil war in which armed forces are accused of killing tens of thousands of civilians – armed military personnel can be seen manning several traffic junctions and checkpoints, periodically inspecting vehicles passing by. In a 2017 report titled 'Normalising the Abnormal: The Militarisation of Mullaitivu District', published eight years after the civil war, non-governmental advocacy organisations Adayaalam Centre for

Policy Research (ACPR) and People for Equality and Relief in Lanka (PEARL) found that there were some 60,000 military personnel among just over 1,30,322 civilians in the district.

The military has also been controlling huge amounts of people's land, including agricultural land and sites of worship, in the post war years, sparking several people's struggles in the north and east. Military spokesman Brigadier Franklin Joseph told *The Hindu* that 91% of military-held land have been returned to the people. Military presence has also "significantly reduced" since the war's end, he said, while declining to share the exact numbers.

President Dissanayake has assured that military-held land in the north and east will be returned to the rightful owners, and that his government was taking steps to expedite the same.

Further, Tamil parliamentarians have in the past accused the military of creating a "drug dependency" among Tamil youth. In a parliamentary address in 2022, Jaffna MP Gajen Ponnambalam spoke of the military's "involvement" in the drug menace. "They are the biggest peddlers of drugs in the north and east, particularly in Jaffna. By extension the police are also in it," he said.

What do rights advocates state?

In its latest report on the situation of human rights in Sri Lanka, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights notes: "Sixteen years after the end of the war, meaningful and comprehensive security sector reform is yet to take place. Consequently, the surveillance apparatus, especially in the north and east, has remained largely intact, with minimal oversight or direction from the central government." It urged the Sri Lankan government to "avoid involvement of military in law enforcement, commercial activities and civil affairs and significantly reduce military presence in the Northern and Eastern Provinces as part of security sector reform".

THE GIST

The recent killing of 32-year-old Ethirmanasingham Kapilraj of Mullaitivu district, in Sri Lanka's northern province led to the hartal call.

While specific data of camps and troops are not available in the public domain, the presence of uniformed men is visibly greater in the island nation's north and east provinces, compared to the rest of the country. The military is also seen running local businesses, including hotels and restaurants; farms and other facilities, competing with the locals who are trying to rebuild their lives and livelihoods that were destroyed in the protracted war.

Tamil parliamentarians have in the past accused the military of creating a "drug dependency" among Tamil youth.

Why Sri Lanka's Tamils are flagging militarisation

श्रीलंका के तमिल सैन्यीकरण को क्यों उजागर कर रहे हैं

- Why Sri Lanka's prominent Tamil party, the Ilankai Tamil Arasu Kadchi, call a symbolic hartal?
श्रीलंका की प्रमुख तमिल पार्टी, इलंकाई तमिल अरसु कडची, ने प्रतीकात्मक हड़ताल क्यों बुलाई?
- Is the presence of uniformed men visibly greater in the island nation's north and east provinces?
क्या द्वीप राष्ट्र के उत्तर और पूर्वी प्रांतों में वर्दीधारी सैनिकों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से अधिक है?
- What has the Office of the UN High Commissioner for Human Rights said about the situation in these provinces?
इन प्रांतों की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने क्या कहा है?

Sri Lanka Tamil Hartal and Militarisation Issue

श्रीलंका तमिल हड़ताल और सैन्यीकरण मुद्दा



- On **August 18**, Sri Lanka's prominent Tamil party the **Ilankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK)**, called a symbolic hartal across the Tamil-majority north and east, to protest militarisation of the former war zone, **16 years** after the Sri Lankan armed forces crushed the **Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)**.
18 अगस्त को श्रीलंका की प्रमुख तमिल पार्टी **इलंके तमिल अरसु कड़ची (ITAK)** ने तमिल-बहुल उत्तर और पूर्व में एक सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया, जो पूर्व युद्ध क्षेत्र में सैन्यीकरण के खिलाफ था, श्रीलंकाई सशस्त्र बलों द्वारा **LTTE** को कुचलने के **16 साल** बाद।
- Businesses and commercial establishments across the northern and eastern provinces remained shut for a few hours in the morning — while some remained open owing to political differences with the ITAK — joining the call to demilitarise their districts.
उत्तर और पूर्वी प्रांतों में व्यवसाय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह के कुछ घंटों के लिए बंद रहे — जबकि कुछ **ITAK** से राजनीतिक मतभेदों के कारण खुले रहे — लेकिन कई जिलों को सैन्य-मुक्त करने की मांग में शामिल हुए।

What prompted the hartal call?

हड़ताल के आह्वान का कारण क्या था?

- The recent killing of **32-year-old Ethirmanasingham Kapilraj** of Mullaitivu district, in Sri Lanka's northern province triggered it.
श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मुल्लैतिवु जिले के **32 वर्षीय एथिरमनसिंघम कपिलराज** की हाल की हत्या ने इस हड़ताल को प्रेरित किया।
- The young Tamil man died in an alleged attack by military men from an army camp located in the district.
उस युवा तमिल व्यक्ति की मृत्यु जिले में स्थित एक सेना शिविर के सैन्यकर्मियों द्वारा कथित हमले में हुई।
- In a letter to President **Anura Kumara Dissanayake** on **August 10**, the ITAK demanded an “unhindered, thorough investigation” into Mr. Kapilraj's death, and also highlighted the “oppressive conduct and excessive presence of the military” in the north and east after the war ended.
10 अगस्त को राष्ट्रपति **अनुरा कुमारा डिसानायके** को लिखे पत्र में **ITAK** ने कपिलराज की मौत की “निष्पक्ष और गहन जांच” की मांग की और युद्ध समाप्त होने के बाद उत्तर और पूर्व में सेना के “दमनकारी व्यवहार और अत्यधिक उपस्थिति” को उजागर किया।
- The government has promised to hold a thorough investigation and bring the perpetrators to book. The police has arrested **three soldiers** in connection with the killing.
सरकार ने गहन जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया है। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में **तीन सैनिकों** को गिरफ्तार किया है।

What is the govt.'s stand on the military?

सरकार का सैन्य पर रुख क्या है?

- For many civic activists in Sri Lanka, the demand for de-militarising the north and east, is also linked to the larger call to downsize the country's **bloated military service**.
श्रीलंका में कई नागरिक कार्यकर्ताओं के लिए, उत्तर और पूर्व को सैन्य-मुक्त करने की मांग देश की **फूली हुई सैन्य सेवा** को घटाने की व्यापक मांग से जुड़ी हुई है।
- In **March this year**, President Dissanayake, who is also the **Minister of Defence**, announced plans to downsize the military by **2030**.
इसी साल **मार्च** में राष्ट्रपति डिसानायके, जो कि **रक्षा मंत्री** भी हैं, ने **2030** तक सेना को छोटा करने की योजना की घोषणा की।
- The latest **Budget allocated LKR 442 billion (~ \$1.5 billion)** to the Ministry of Defence — significantly more than the amount set aside for education, local commentators observed.



नवीनतम बजट में रक्षा मंत्रालय को 442 बिलियन LKR (\approx \$1.5 बिलियन) आवंटित किए गए — जो शिक्षा के लिए अलग रखी गई राशि से कहीं अधिक है, स्थानीय टिप्पणीकारों ने कहा।

- In its analysis of the **2024 Budget estimates**, Colombo-based think tank **Verité Research** found that expenditure on just the **uniforms and diets** in the defence sector was projected to increase by **LKR 75 billion (\approx \$250 million)**, or **258%** compared to **2022**.
कोलंबो स्थित थिंक टैंक वेरिटे रिसर्च के **2024 बजट अनुमानों** के विश्लेषण में पाया गया कि रक्षा क्षेत्र में केवल **वर्दी और भोजन** पर खर्च **2022** की तुलना में **75 बिलियन LKR (\approx \$250 मिलियन)** या **258%** बढ़ने का अनुमान था।
- “As a percentage of GDP, Sri Lanka spends nearly **2%** on military expenses, an extraordinarily high amount for a country that does not face an existential security threat,” retired army officer **Major Gen. Dr. Boniface Perera** observed in a newspaper column earlier this year.
“GDP के प्रतिशत के रूप में, श्रीलंका अपनी सैन्य खर्चों पर लगभग **2%** खर्च करता है, जो कि एक ऐसे देश के लिए असाधारण रूप से अधिक है जिसे अस्तित्वगत सुरक्षा खतरे का सामना नहीं है,” सेवानिवृत्त सेना अधिकारी **मेजर जनरल डॉ. बोनिफेस परेरा** ने इस साल की शुरुआत में एक समाचार पत्र कॉलम में कहा।

Extent of Military Presence in the North and East

उत्तर और पूर्व में सैन्य उपस्थिति की सीमा

- While specific **data of camps and troops** currently stationed are not available in the public domain, the presence of **uniformed men** is visibly greater in the island nation's **north and east provinces**, compared to the rest of the country.
वर्तमान में तैनात **कैंपों और सैनिकों के आंकड़े** सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन द्वीप राष्ट्र के **उत्तर और पूर्वी प्रांतों में वर्दीधारी सैनिकों** की उपस्थिति देश के अन्य हिस्सों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक है।
- The military is also seen running **local businesses**, including **hotels and restaurants, farms and other facilities**, competing with the locals who are trying to rebuild their lives and livelihoods that were destroyed in the **protracted war**.
सेना को **स्थानीय व्यवसायों** जैसे **होटल और रेस्टोरेंट, खेत और अन्य सुविधाओं** का संचालन करते हुए भी देखा गया है, जो उन स्थानीय लोगों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो **लंबे युद्ध** में नष्ट हुई अपनी जिंदगी और आजीविका को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
- In **Mullaitivu district** in particular — the site of the **final battle of the civil war** in which armed forces are accused of killing **tens of thousands of civilians** — armed military personnel can be seen manning several **traffic junctions and checkpoints**, periodically inspecting vehicles passing by.
विशेष रूप से **मुल्लैटिवु ज़िले** में — जो **गृहयुद्ध की अंतिम लड़ाई** का स्थल था, जहाँ सशस्त्र बलों पर **हजारों नागरिकों की हत्या** का आरोप है — सशस्त्र सैनिक कई **यातायात चौक और चौकियों** पर तैनात दिखाई देते हैं और समय-समय पर गुजरने वाले वाहनों की जांच करते हैं।
- In a **2017 report** titled ‘*Normalising the Abnormal: The Militarisation of Mullaitivu District*’, published **eight years after the civil war**, non-governmental advocacy organisations **Adayaalam Centre for Policy Research (ACPR)** and **People for Equality and Relief in Lanka (PEARL)** found that there were some **60,000 military personnel** among just over **1,30,322 civilians** in the district.
2017 की एक रिपोर्ट ‘*Normalising the Abnormal: The Militarisation of Mullaitivu District*’ में, जो **गृहयुद्ध के आठ साल बाद** प्रकाशित हुई, गैर-सरकारी संगठन **अडायालम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (ACPR)** और **पीपल फॉर इक्वैलिटी एंड रिलीफ इन लंका (PEARL)** ने पाया कि ज़िले में लगभग **1,30,322 नागरिकों** के बीच **60,000 सैनिक मौजूद** थे।
- The military has also been controlling huge amounts of people's **land**, including **agricultural land and sites of worship**, in the post-war years, sparking several **people's struggles** in the north and east.



युद्धोत्तर वर्षों में सेना लोगों की भूमि का बड़ा हिस्सा, जिसमें कृषि भूमि और पूजा स्थल शामिल हैं, नियंत्रित करती रही है, जिससे उत्तर और पूर्व में कई जन संघर्ष भड़क उठे।

- Military spokesman **Brigadier Franklin Joseph** told *The Hindu* that **91% of military-held land** have been returned to the people. Military presence has also “**significantly reduced**” since the war’s end, he said, while declining to share the exact numbers.

सैन्य प्रवक्ता **ब्रिगेडियर फ्रैंकलिन जोसेफ** ने *द हिंदू* को बताया कि सेना द्वारा कब्जे में ली गई भूमि का **91%** लोगों को लौटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद से सैन्य उपस्थिति भी “**काफी हद तक कम हुई है**”, हालांकि उन्होंने सटीक आंकड़े साझा करने से इनकार कर दिया।

- President **Dissanayake** has assured that military-held land in the **north and east** will be returned to the **rightful owners**, and that his government was taking steps to expedite the same.

राष्ट्रपति **दिस्सानायके** ने आश्वासन दिया है कि उत्तर और पूर्व में सेना द्वारा कब्जा की गई भूमि **वास्तविक मालिकों** को लौटाई जाएगी और उनकी सरकार इसे तेज़ी से लागू करने के लिए कदम उठा रही है।

- Further, **Tamil parliamentarians** have in the past accused the military of creating a “**drug dependency**” among **Tamil youth**.

इसके अलावा, अतीत में **तमिल सांसदों** ने सेना पर **तमिल युवाओं** में “**नशीली दवाओं पर निर्भरता**” पैदा करने का आरोप लगाया है।

- In a **parliamentary address in 2022**, **Jaffna MP Gajen Ponnambalam** spoke of the military’s “**involvement**” in the **drug menace**. “They are the biggest peddlers of drugs in the north and east, particularly in Jaffna. By extension the police are also in it,” he said.

2022 की संसदीय बहस में, **जाफ़ना सांसद गजेन पोनंबलम** ने सेना की “**नशे की समस्या में संलिप्तता**” की बात कही। उन्होंने कहा, “वे उत्तर और पूर्व, विशेषकर जाफ़ना में नशीली दवाओं के सबसे बड़े तस्कर हैं। इसके साथ ही पुलिस भी इसमें शामिल है।”

What do rights advocates state?

अधिकार कार्यकर्ता क्या कहते हैं?

- In its **latest report** on the situation of **human rights in Sri Lanka**, the **Office of the UN High Commissioner for Human Rights** notes: “**Sixteen years** after the end of the war, meaningful and comprehensive **security sector reform** is yet to take place. Consequently, the **surveillance apparatus**, especially in the **north and east**, has remained largely intact, with minimal oversight or direction from the central government.”

श्रीलंका में मानवाधिकार की स्थिति पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा: “युद्ध समाप्त होने के **16 वर्ष** बाद भी सार्थक और व्यापक **सुरक्षा क्षेत्र सुधार** होना बाकी है। नतीजतन, विशेष रूप से उत्तर और पूर्व में **निगरानी तंत्र** बड़े पैमाने पर जस का तस है, जिसमें केंद्रीय सरकार की ओर से न्यूनतम निगरानी या दिशा है।”

- It urged the **Sri Lankan government** to “avoid involvement of the military in **law enforcement, commercial activities and civil affairs** and significantly reduce **military presence** in the **Northern and Eastern Provinces** as part of **security sector reform**”.

इसने **श्रीलंकाई सरकार** से आग्रह किया कि वह **सैन्य बलों को कानून प्रवर्तन, वाणिज्यिक गतिविधियों और नागरिक मामलों** में शामिल होने से रोके और **सुरक्षा क्षेत्र सुधार** के हिस्से के रूप में **उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में सैन्य उपस्थिति** को काफी हद तक कम करे।



Will a two-tiered World Test Championship do more harm than good?

क्या दो-स्तरीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अधिक हानि पहुँचाएगी या लाभ?

World Test Championship Restructuring Proposal

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पुनर्गठन प्रस्ताव

- A proposal to restructure the **World Test Championship (WTC)** into a two-tiered system, potentially dividing the **12 Test-playing nations** into two groups of six teams, or into two groups of seven and five teams, is gaining traction.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) को पुनर्गठित करने का एक प्रस्ताव, जिसे दो-स्तरीय प्रणाली में बदलने और 12 टेस्ट खेलने वाले देशों को छह-छह टीमों के दो समूहों में, या सात और पाँच टीमों के दो समूहों में बाँटने का सुझाव है, गति पकड़ रहा है।
- While some argue that this system could improve the quality of matches and increase competitiveness by having top teams play each other more often, others worry that lower-ranked teams will get fewer opportunities to play.
जहाँ कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह प्रणाली मैचों की गुणवत्ता बढ़ा सकती है और शीर्ष टीमों के बीच अधिक बार मुकाबला होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, वहीं अन्य लोग चिंतित हैं कि निचले स्तर की टीमों को खेलने के अवसर कम मिलेंगे।
- Will a two-tiered WTC do more harm than good? **Deep Dasgupta** and **Jatin Paranjape** discuss the question in a conversation moderated by **Amol Karhadkar**.
क्या दो-स्तरीय WTC अधिक नुकसान करेगी या लाभ? इस प्रश्न पर दीप दासगुप्ता और जतिन परांजपे ने अमोल करहाडकर की अध्यक्षता में बातचीत में चर्चा की।

Is this proposal actually expected to benefit Test cricket?

क्या यह प्रस्ताव वास्तव में टेस्ट क्रिकेट को लाभ पहुंचाने की उम्मीद रखता है?

- **Deep Dasgupta**: I wrote for Sportstar in 2017 in favour of the proposal, so I am an advocate. The quality of the India-England Test series may not have been great, but because it was competitive, it had everyone's attention.
दीप दासगुप्ता: मैंने 2017 में स्पोर्टस्टार के लिए इस प्रस्ताव के पक्ष में लिखा था, इसलिए मैं इसका समर्थक हूँ। भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की गुणवत्ता शायद बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह प्रतिस्पर्धात्मक थी, इसने सभी का ध्यान खींचा।
- Test cricket will be watched by people as long as it is competitive. Obviously, we can't expect people to watch it on all five days, for seven hours each day. But if it is competitive, people will follow it more often.
टेस्ट क्रिकेट को लोग तब तक देखते रहेंगे जब तक यह प्रतिस्पर्धात्मक रहेगा। जाहिर है, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग इसे पाँचों दिन, सात-सात घंटे देखें। लेकिन यदि यह प्रतिस्पर्धात्मक है, तो लोग इसे अधिक बार फॉलो करेंगे।



- With a two-tiered WTC, you will have a more competitive series and more people following Test matches again.
दो-स्तरीय WTC के साथ, अधिक प्रतिस्पर्धात्मक सीरीज़ होंगी और अधिक लोग फिर से टेस्ट मैचों को फॉलो करेंगे।
- **Jatin Paranjape:** Today, more people consume the **T20 (Twenty-20)** format of cricket. But having said that, consumer behaviour has evolved rapidly: there is a niche group of people supporting Test cricket as well. They follow and appreciate the intricacies of Test cricket.
जतिन परांजपे: आज अधिक लोग क्रिकेट के **टी20 (ट्वेंटी-20)** प्रारूप को देखते हैं। लेकिन यह कहते हुए भी, उपभोक्ता व्यवहार तेजी से विकसित हुआ है: एक विशेष समूह ऐसा भी है जो टेस्ट क्रिकेट का समर्थन करता है। वे टेस्ट क्रिकेट की बारीकियों को समझते और सराहते हैं।
- So, the time has come for the **ICC (International Cricket Council)** to launch Test cricket as a product. They need to be mindful of the fact that while all the media attention is around the T20 game, the ratings during the India-England Test series went through the roof.
इसलिए अब समय आ गया है कि **आईसीसी (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद)** टेस्ट क्रिकेट को एक उत्पाद के रूप में लॉन्च करे। उन्हें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि जबकि मीडिया का सारा ध्यान टी20 खेल पर है, भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के दौरान रेटिंग्स बहुत ऊँची थीं।
- And that launch has to be a happy marriage of keeping the **philosophical priority** of Test cricket alive with the **commercial angle**.
और यह लॉन्च टेस्ट क्रिकेट की **दार्शनिक प्राथमिकता** को जीवित रखते हुए **वाणिज्यिक पहलू** के साथ संतुलन होना चाहिए।
- I am not against the two-tier format, but it should not be skewed towards redistribution of commerce; it should be skewed towards redistribution of opportunity for all the teams, so that they have a reasonable stab at Test cricket.
मैं दो-स्तरीय प्रारूप के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यह केवल वाणिज्य के पुनर्वितरण की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए; बल्कि यह सभी टीमों के लिए अवसरों के पुनर्वितरण की ओर झुका होना चाहिए, ताकि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में उचित मौका मिल सके।
- It should incentivise teams in the second tier to improve their game.
इसे दूसरी श्रेणी की टीमों को अपना खेल सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

World Test Championship Format Debate

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप प्रारूप पर बहस

- At the moment, the **WTC involves only nine of the 12 Test-playing nations**. Each team plays **six series**, primarily to avoid pitting **India and Pakistan** against each other.
वर्तमान में, **डब्ल्यूटीसी में 12 टेस्ट खेलने वाले देशों में से केवल नौ शामिल हैं**। प्रत्येक टीम **छह सीरीज़** खेलती है, मुख्य रूप से **भारत और पाकिस्तान** को आमने-सामने लाने से बचाने के लिए।
- **DD:** The major issue with a **two-tier system** with six teams in each tier is that a lot of the teams might say, 'I am not going to play in the second tier'.
DD: दो-स्तरीय प्रणाली जिसमें प्रत्येक स्तर पर छह टीमों हों, की बड़ी समस्या यह है कि कई टीमों कह सकती हैं, 'मैं सेकंड टियर में नहीं खेलूंगा'।
- So let's say they are divided as **seven (top tier)** and **five (bottom tier)** and we stick with the current format, which is six series in a cycle. If you have seven teams in Tier 1, automatically you play six other teams.
मान लीजिए उन्हें **सात (टॉप टियर)** और **पाँच (बॉटम टियर)** में बाँटा गया और हम मौजूदा प्रारूप यानी एक चक्र में छह सीरीज़ पर टिके रहे। अगर टियर 1 में सात टीमों हों, तो स्वतः ही आप छह अन्य टीमों से खेलेंगे।
- Whether it's **India-Pakistan**, I think that's a different issue. That can happen whenever it happens and whatever the powers are, they will decide.
चाहे वह **भारत-पाकिस्तान** ही क्यों न हो, मेरा मानना है कि यह एक अलग मुद्दा है। यह जब भी होगा और जैसे भी शक्तियाँ तय करेंगी, वैसा ही होगा।



- Once **Test cricket is sold as a quality product** — the **India-England series** was a great advocate for that — then you will also get **revenue** from it. And then you can create a **Test fund**.
जब टेस्ट क्रिकेट को एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के रूप में बेचा जाएगा — भारत-इंग्लैंड सीरीज़ इसका शानदार उदाहरण थी — तब आपको इससे राजस्व भी मिलेगा। और फिर आप एक टेस्ट फंड बना सकते हैं।
- A major chunk of it would go into organising Test series for teams in the **second tier**. One of the major reasons why many Test-playing nations don't play many Test matches is the **commercial aspect**.
इसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे स्तर की टीमों के लिए टेस्ट सीरीज़ आयोजित करने में जाएगा। प्रमुख कारणों में से एक कि कई टेस्ट खेलने वाले देश ज्यादा टेस्ट नहीं खेलते, वह है वाणिज्यिक पहलू।
- A series with **five T20s** is more commercially viable than one with **three Test matches**. If the **ICC** comes up with a **Test fund**, that could help.
पाँच T20 वाली सीरीज़ तीन टेस्ट मैचों वाली सीरीज़ से अधिक लाभकारी होती है। यदि आईसीसी एक टेस्ट फंड लेकर आए, तो यह मददगार हो सकता है।

Calendar and Prioritisation

कैलेंडर और प्राथमिकता निर्धारण

- **JP:** Your calendar dictates what you can and cannot do. There is a **finite number of days** within which you need to drive this game forward.
JP: आपका कैलेंडर तय करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। खेल को आगे बढ़ाने के लिए दिनों की संख्या सीमित है।
- It's funny that today, when you think about the calendar, you think about the **IPL first** and then look at what is left.
यह मज़ेदार है कि आज जब कैलेंडर के बारे में सोचा जाता है, तो सबसे पहले आईपीएल ध्यान में आता है और फिर देखा जाता है कि क्या बचा है।
- The **ICC** will have to identify what the **two most important formats** are, out of the three formats.
आईसीसी को तय करना होगा कि तीन प्रारूपों में से दो सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप कौन से हैं।
- **ODI cricket** needs to be looked at. The amount of **inane bilateral ODIs** today is not good for the game, the broadcaster, or the consumer.
वनडे क्रिकेट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के फालतू द्विपक्षीय वनडे न खेल के लिए अच्छे हैं, न प्रसारकों के लिए और न उपभोक्ताओं के लिए।
- Prioritise **T20 cricket** and **Test cricket** as the two main focus areas. The **ICC** has to have a **tricky conversation** with stakeholders ahead of the **2027 cycle**.
T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को मुख्य प्राथमिकता देना चाहिए। आईसीसी को 2027 चक्र से पहले हितधारकों के साथ कठिन बातचीत करनी होगी।

Suggestions for Next WTC (2027-2031)

अगली डब्ल्यूटीसी (2027-2031) के लिए सुझाव

- In **July**, the **ICC** formed a **working group** headed by **Roger Twose** to look into the next WTC.
जुलाई में, आईसीसी ने अगली डब्ल्यूटीसी पर विचार करने के लिए रॉजर ट्वोज़ की अध्यक्षता में एक कार्य समूह बनाया।
- **DD:** First, figure out a **window for Test cricket**. For that, control the spread of **franchise cricket**. Many **29-year-old cricketers** are retiring early due to franchise pull.
DD: सबसे पहले, टेस्ट क्रिकेट के लिए एक विंडो तय करें। इसके लिए फ्रेंचाइज़ क्रिकेट के फैलाव को नियंत्रित करें। कई 29 वर्षीय क्रिकेटर फ्रेंचाइज़ के कारण जल्दी संन्यास ले रहे हैं।



- The **two-tier system** makes sense if such windows are created.
यदि ऐसी विंडो बनाई जाए तो **दो-स्तरीय प्रणाली** समझ में आती है।
- **JP:** The ICC is the **custodian of the game** and must have a **long-term view**. In the next **5–7 years**, build **12 strong Test nations**.
JP: आईसीसी खेल का संरक्षक है और उसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगले **5–7 वर्षों** में **12 मजबूत टेस्ट राष्ट्र** तैयार करने होंगे।
- One way is to create a **league for tier two teams**. After a level, **2–3 teams** can be switched with **tier one teams**. This gives fans something to look forward to.
एक तरीका यह है कि **टियर 2 टीमों के लिए लीग** बनाई जाए। एक स्तर के बाद **2–3 टीमों** को **टियर 1 टीमों** से बदला जा सकता है। इससे दर्शकों को उत्साह मिलेगा।
- **DD:** That is a great idea. **Five teams** in **tier two** can play each other over **1.5–2 months**.
DD: यह एक शानदार विचार है। **टियर 2 की पाँच टीमों** आपस में **डेढ़ से दो महीने** तक खेल सकती हैं।

Ideal approach for the BCCI, ECB, and Cricket Australia बीसीसीआई, ईसीबी, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए आदर्श दृष्टिकोण

- Can you suggest the ideal approach for the **BCCI (Board of Control for Cricket in India)**, the **ECB (England and Wales Cricket Board)**, and **Cricket Australia** — the three top boards that control the Test calendar and revenue — to make the two-tier Test system work?
क्या आप **बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड)**, **ईसीबी (इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड)** और **क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया** — जो टेस्ट कैलेंडर और राजस्व को नियंत्रित करने वाले शीर्ष तीन बोर्ड हैं — के लिए दो-स्तरीय टेस्ट प्रणाली को कामयाब बनाने का आदर्श दृष्टिकोण बता सकते हैं?
- **JP:** There isn't a more opportune time than this: the head of the **ICC** is the former head of the **BCCI**. A lot of changes can be made because there is the **muscle** to do it. When I say muscle, I mean it in a good way, in a way where you want to promote the game, where you want to add commercial longevity to the game.
जेपी: इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता: **आईसीसी** का प्रमुख, **बीसीसीआई** का पूर्व प्रमुख है। बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि इसके लिए पर्याप्त **शक्ति** है। जब मैं शक्ति कहता हूँ, तो मेरा मतलब अच्छे तरीके से है, उस तरह से जहाँ आप खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं, और खेल में वाणिज्यिक दीर्घायु जोड़ना चाहते हैं।
- Let us not underestimate the power of the **consumer**. The consumer must feel enthused that Test cricket is well looked after; that there is the **dopamine fix** with the T20 format, but there is also a fantastic Test cricket calendar year on year, which is going to evolve into strengthening the tier two teams.
हमें **उपभोक्ता** की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। उपभोक्ता को यह महसूस होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट का अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है; कि टी20 प्रारूप से **डोपामाइन उतेजना** मिलती है, लेकिन साथ ही हर साल एक शानदार टेस्ट क्रिकेट कैलेंडर भी है, जो दूसरे स्तर की टीमों को मजबूत करने की दिशा में विकसित होगा।
- I also feel the **ICC** will miss an opportunity if they don't form an advisory committee of some of the **top players** who have been big proponents of Test cricket or champions in Test cricket. No disrespect to Roger Twose, but players such as **Sachin Tendulkar, Alastair Cook, and Ricky Ponting** need to be part of the decision-making process.
मुझे यह भी लगता है कि यदि **आईसीसी** कुछ **शीर्ष खिलाड़ियों** की एक सलाहकार समिति नहीं बनाती है, जो टेस्ट क्रिकेट के बड़े समर्थक या चैंपियन रहे हैं, तो यह एक अवसर चूक जाएगा। रोजर ट्वोज़ का अपमान नहीं है, लेकिन **सचिन तेंदुलकर, एलेस्टर कुक और रिकी पॉटिंग** जैसे खिलाड़ियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
- **DD:** I am glad that we are talking and everyone is talking about this. We have seen the time when nobody was really bothered about Test cricket. Once we accept the fact that there are challenges, and we need to do something, I am sure there will be solutions.



डीडी: मुझे खुशी है कि हम इस पर बात कर रहे हैं और हर कोई इस पर बात कर रहा है। हमने वह समय देखा है जब वास्तव में कोई टेस्ट क्रिकेट की परवाह नहीं करता था। एक बार जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि चुनौतियाँ हैं, और हमें कुछ करना है, तो मुझे यकीन है कि समाधान मिलेंगे।

- JP: Let me talk about the consumer again. Let us not forget that the **consumer** is also often an **aspiring cricketer**. If teenagers don't want to play red-ball cricket, they want to play white-ball cricket. You need to be able to touch them in some way, you need to be able to inspire them with the fact that Test cricket is being given priority that is similar to what is given to T20 cricket.

जेपी: मुझे उपभोक्ता के बारे में फिर से बात करने दें। यह मत भूलिए कि **उपभोक्ता** अक्सर एक **उदीयमान क्रिकेटर** भी होता है। यदि किशोर लाल गेंद क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, तो वे सफेद गेंद क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी तरह से प्रभावित करना होगा, आपको उन्हें इस तथ्य से प्रेरित करना होगा कि टेस्ट क्रिकेट को वही प्राथमिकता दी जा रही है जो टी20 क्रिकेट को दी जाती है।

- If you fix cricket from an organisational perspective, but if your new players don't want to play Test cricket, then you have a problem again. You need to launch Test cricket as a **product**. The objective could be that by **2036**, we have 14 really strong Test nations. यदि आप क्रिकेट को संगठनात्मक दृष्टिकोण से ठीक भी कर लें, लेकिन यदि आपके नए खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, तो फिर से समस्या होगी। आपको टेस्ट क्रिकेट को एक **प्रोडक्ट** के रूप में लॉन्च करना होगा। उद्देश्य यह हो सकता है कि **2036** तक हमारे पास 14 वास्तव में मजबूत टेस्ट राष्ट्र हों।

Any parting thoughts?

क्या कोई विदाई विचार?

- DD: For us, Test cricket is the most favoured format. Since everyone is talking about improving it, things will fall into place.

डीडी: हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट सबसे पसंदीदा प्रारूप है। चूंकि हर कोई इसे सुधारने के बारे में बात कर रहा है, चीजें सही जगह पर आ जाएंगी।

- JP: There needs to be a long-term view. The **BCCI** needs to shepherd this entire conversation. It does not need to be a dictator, but it needs to shepherd this entire conversation. Without a definitive point of view from the **BCCI**, we'll be having the same chat two years down the road.

जेपी: एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण होना चाहिए। **बीसीसीआई** को इस पूरी बातचीत का नेतृत्व करना चाहिए। इसे एक तानाशाह होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे इस पूरी बातचीत का मार्गदर्शन करना चाहिए।

बीसीसीआई की एक निश्चित दृष्टि के बिना, हम दो साल बाद भी यही चर्चा कर रहे होंगे।



GENEVA

Israel's ongoing offensive in Gaza is 'intolerable', says Red Cross



GS II: IO

AFP

Israel's offensive in the Gaza Strip, aimed at conquering Gaza City is "intolerable", the Red Cross said on Thursday. "The intensification of hostilities in Gaza means more killing, more displacement, more destruction and more panic," Christian Cardon, chief spokesman for the International Committee of the Red Cross (ICRC) said. AFP

Israel's ongoing offensive in Gaza is 'intolerable', says Red Cross

गाज़ा में इज़राइल का जारी हमला 'असहनीय' है, रेड क्रॉस ने कहा

Israel's offensive in the Gaza Strip, aimed at conquering Gaza City is "intolerable", the Red Cross said on Thursday.

गाज़ा पट्टी में गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से इज़राइल का हमला "असहनीय" है, ऐसा रेड क्रॉस ने गुरुवार को कहा।

- "The intensification of hostilities in **Gaza** means more killing, more displacement, more destruction and more panic," **Christian Cardon**, chief spokesman for the **International Committee of the Red Cross (ICRC)** said.

"गाज़ा में शत्रुता की तीव्रता का मतलब है अधिक हत्या, अधिक विस्थापन, अधिक विनाश और अधिक दहशत," ऐसा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (आईसीआरसी) के मुख्य प्रवक्ता क्रिश्चियन कार्डोन ने कहा।

Red Cross

- The **Red Cross** is an **international humanitarian organization** that provides **emergency assistance, disaster relief, and health services** across the world.



- It works under the guiding principles of **neutrality, impartiality, independence, humanity, voluntary service, universality, and unity.**

Origin and History

- Founded by **Henry Dunant**, a Swiss businessman, after witnessing the **Battle of Solferino (1859)** in Italy, where thousands of wounded soldiers were left unattended.
- His book "*A Memory of Solferino*" (1862) inspired the formation of a humanitarian movement.
- In **1863**, the **International Committee of the Red Cross (ICRC)** was established in Geneva, Switzerland.
- The **First Geneva Convention (1864)** laid the legal foundation of the Red Cross by ensuring protection and care for wounded soldiers, irrespective of their side.

Structure of Red Cross

1. **International Committee of the Red Cross (ICRC)**
 - Headquarters: **Geneva, Switzerland.**
 - Works mainly in **conflict zones** and ensures application of the **Geneva Conventions.**
 - Provides aid to prisoners of war, civilians in conflict, and war-affected areas.
2. **International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)**
 - Established in **1919.**
 - Coordinates relief work during **natural disasters, health emergencies, and epidemics.**
3. **National Red Cross and Red Crescent Societies**
 - Present in **191 countries** (as of 2025).
 - Act locally in humanitarian services like blood donation, first aid, disaster management.
 - Example: **Indian Red Cross Society (IRCS)**, founded in **1920**, headquartered in New Delhi.

Functions of Red Cross

- **Disaster Response:** Relief and rehabilitation during earthquakes, floods, famines, pandemics.
- **War and Conflict Aid:** Medical care to wounded soldiers and civilians.
- **Health Services:** Blood donation drives, vaccination campaigns, maternal and child care.
- **Refugee Assistance:** Food, shelter, and medical care to displaced people.
- **Promotion of International Humanitarian Law (IHL):** Training armies and civilians about **Geneva Conventions.**
- **Community Services:** First aid training, sanitation, water supply, and health education.



BERLIN

Ukrainian man arrested in Italy over Nord Stream pipeline attacks



GS II: Europe

REUTERS

A Ukrainian man suspected to be one of the coordinators of the undersea explosions in 2022 that damaged the Nord Stream gas pipelines between Russia and Germany has been arrested in Italy, German prosecutors have said. The suspect was identified as Serhii K. in line with German privacy rules, federal prosecutors said. AP

Ukrainian man arrested in Italy over Nord Stream pipeline attacks

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन हमलों के मामले में इटली में यूक्रेनी व्यक्ति गिरफ्तार

A Ukrainian man suspected to be one of the coordinators of the undersea explosions in 2022 that damaged the Nord Stream gas pipelines between Russia and Germany has been arrested in Italy, German prosecutors have said.

जर्मन अभियोजकों ने कहा कि 2022 में रूस और जर्मनी के बीच स्थित नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाने वाले समुद्र के नीचे हुए विस्फोटों के समन्वयकों में से एक होने के संदेह में एक यूक्रेनी व्यक्ति को इटली में गिरफ्तार किया गया है।

- The suspect was identified as **Serhii K.** in line with **German privacy rules**, federal prosecutors said.
संघीय अभियोजकों ने कहा कि संदिग्ध की पहचान जर्मन गोपनीयता नियमों के अनुसार **सर्ही के.** के रूप में की गई है।



Nord Stream Pipeline

- The Nord Stream is a system of offshore natural gas pipelines running from Russia to Europe across the Baltic Sea.
- It directly connects Russia with Germany, bypassing traditional transit countries like Ukraine and Poland.
- It is one of the world's longest subsea pipelines, carrying Russian gas to meet Europe's energy demands.

Details of the Pipelines

1. Nord Stream 1

- Operational since: 2011–2012.
- Route: Vyborg (Russia) → Greifswald (Germany).
- Length: About 1,224 km.

China, Pakistan Foreign Ministers agree to launch new economic corridor projects

GS II: India's Neighbours

Associated Press

ISLAMABAD

Pakistan and China pledged to expand economic cooperation and investment under the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), a flagship programme of China's Belt and Road Initiative, officials said.

Chinese Foreign Minister Wang Yi met with his Pakistani counterpart, Ishaq Dar, at the Ministry of Foreign Affairs in Islamabad on Thursday. The two sides agreed to launch new projects through the CPCC,

a Pakistani government statement said. The countries did not share details of the proposed projects immediately.

The Belt and Road Initiative has built power plants, roads, railroads and ports around the world and deepened China's relations with Africa, Asia, Latin America and West Asia. It is a major part of Chinese President Xi Jinping's push for China to play a larger role in global affairs.

Beijing has invested billions of dollars in Pakistan through CPEC, to connect China's western Xinjiang

Wang Yi urged Pakistan to ensure the safety of Chinese workers and engineers

region with the Arabian Sea port of Gwadar in southwest Pakistan, where some Chinese have been attacked by insurgents.

The Foreign Ministers vowed to deepen collaboration in science, technology, industry and agriculture.

Mr. Wang urged Pakistan to ensure the safety of

Chinese workers and engineers, who have come under attack by separatists in Balochistan province and elsewhere in recent years. Pakistan already has increased security for Chinese working on CPEC-related projects.

China has long been one of Pakistan's key ally and financial backer, especially as Islamabad struggles with a prolonged economic crisis.

The meeting came a day after Mr. Wang and Mr. Dar travelled to Kabul for a trilateral dialogue with Afghanistan's Taliban rulers.



China, Pakistan Foreign Ministers agree to launch new economic corridor projects

चीन, पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने नए आर्थिक गलियारा परियोजनाएं शुरू करने पर सहमति जताई

Pakistan and China pledged to expand economic cooperation and investment under the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), a flagship programme of China's Belt and Road Initiative, officials said.

अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक प्रमुख योजना है, के तहत आर्थिक सहयोग और निवेश को विस्तार देने का संकल्प लिया।

- Chinese Foreign Minister Wang Yi met with his Pakistani counterpart, Ishaq Dar, at the Ministry of Foreign Affairs in Islamabad on Thursday. The two sides agreed to launch new projects through the CPEC, a Pakistani government statement said. The countries did not share details of the proposed projects immediately.
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय में अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तानी सरकार के बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने CPEC के माध्यम से नई परियोजनाएं शुरू करने पर सहमति जताई। प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण देशों ने तुरंत साझा नहीं किया।
- The Belt and Road Initiative has built power plants, roads, railroads and ports around the world and deepened China's relations with Africa, Asia, Latin America and West Asia. It is a major part of Chinese President Xi Jinping's push for China to play a larger role in global affairs.
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दुनिया भर में बिजली संयंत्र, सड़कें, रेलमार्ग और बंदरगाह बनाए हैं और चीन के संबंधों को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया के साथ गहरा किया है। यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन को वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाने की पहल का एक प्रमुख हिस्सा है।
- Beijing has invested billions of dollars in Pakistan through CPEC, to connect China's western Xinjiang region with the Arabian Sea port of Gwadar in southwest Pakistan, where some Chinese have been attacked by insurgents.
बीजिंग ने CPEC के माध्यम से पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, ताकि चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ा जा सके, जहां कुछ चीनी लोगों पर विद्रोहियों ने हमला किया है।
- The Foreign Ministers vowed to deepen collaboration in science, technology, industry and agriculture.
विदेश मंत्रियों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और कृषि में सहयोग को गहरा करने का संकल्प लिया।
- Mr. Wang urged Pakistan to ensure the safety of Chinese workers and engineers, who have come under attack by separatists in Balochistan province and elsewhere in recent years. Pakistan already has increased security for Chinese working on CPEC-related projects.
श्री वांग ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह चीनी श्रमिकों और इंजीनियरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिन पर हाल के वर्षों में बलूचिस्तान प्रांत और अन्य जगहों पर अलगाववादियों ने हमला किया है। पाकिस्तान पहले ही CPEC से संबंधित परियोजनाओं पर काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ा चुका है।
- China has long been one of Pakistan's key ally and financial backer, especially as Islamabad struggles with a prolonged economic crisis.
चीन लंबे समय से पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी और वित्तीय समर्थक रहा है, खासकर तब जब इस्लामाबाद एक लंबे आर्थिक संकट से जूझ रहा है।



- The meeting came a day after **Mr. Wang** and **Mr. Dar** travelled to **Kabul** for a trilateral dialogue with **Afghanistan's Taliban rulers**.
यह बैठक उस दिन के बाद हुई जब श्री वांग और श्री डार ने काबुल की यात्रा की थी ताकि अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के साथ त्रिपक्षीय संवाद किया जा सके।

TOPICS COVERED (GS Paper III: Polity, Governance, And International Relations)

- 1. Simplified two-rate GST structure gets GoM's nod, awaits Council's approval**
सरलीकृत दो-दर GST संरचना को GoM की मंजूरी, परिषद की स्वीकृति का इंतजार
- 2. Panchayat sets example with cancer-control model**
पंचायत ने कैंसर-नियंत्रण मॉडल से उदाहरण पेश किया
- 3. The ugly side of India's unregulated 'cosmetology clinics'**
भारत में बिना नियमन वाले 'कॉस्मेटोलॉजी क्लीनिक्स' का बदसूरत पक्ष
- 4. India business activity fastest in at least two decades: PMI**
भारत का व्यापार गतिविधि कम से कम दो दशकों में सबसे तेज़: पीएमआई
- 5. As RS passes real money gaming ban bill, companies at crossroads**
जैसे ही राज्यसभा ने वास्तविक धन गेमिंग प्रतिबंध विधेयक पारित किया, कंपनियां चौराहे पर



Simplified two-rate GST structure gets GoM's nod, awaits Council's approval

GS III: Taxation

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

The Group of Ministers (GoM) on Rate Rationalisation, formed by the Goods and Services Tax (GST) Council, has decided to accept the Centre's two-rate structure proposal for GST and will be recommending this to the GST Council, the GoM chairperson and Bihar Deputy Chief Minister Samrat Choudhary said on Thursday.


This is the first of two steps the proposals must pass before implementation. The second step would be for the GST Council to accept the changes. "It was the Centre's proposal to end two slabs of GST, the 12% and 28% slabs," Mr. Choudhary told reporters. "We have recommended it, and now the GST Council will decide on this."

The Centre has not announced the date of the next GST Council meeting, although it is expected to take place in early September.

Talking to *The Hindu*, Kerala Finance Minister K.N. Balagopal, a member of the GoM, said the proposal from the Union government was not discussed in detail by the GoM. "The discussion should happen within the GST Council, and the Council will take a final decision. The GoM has forwarded the proposal of the Centre with some observations that it should discuss the possibility of loss in revenue for the

Effective rate

After the rationalisation, the weighted average GST rate (effective rate) is expected to decline from the notional rate of 14.4% in May 2017 to 9.5% in FY26-27*, according to the SBI Research



States too. We have suggested that there should be a mechanism to compensate the States," Mr. Balagopal said.

In his Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi announced that the "next-generation GST reforms" would be a "Deepavali gift" from the Centre.

The proposal involves retaining just the 5% and 18% slabs in the current GST structure and doing away with the 12% and 28% slabs. This would entail 99% of the items in the 12% slab moving to 5%, and 90% of the items in the 28% slab moving to 18%.

The remaining items in the 28% slab would be moved to a higher 40% slab. However, the compensation cess currently being levied on the items in the 28% slab would no longer apply.

Relief for households

"The proposed shift of most items promises tangi-

ble relief for households and MSMEs, while aligning with the government's broader agenda of growth and financial inclusion," said Manoj Mishra, Partner and Tax Controversy Management Leader at Grant Thornton Bharat.

However, he added that there needs to be "careful calibration" to preserve revenue neutrality and avoid inflationary pressures.

According to Saurabh Agarwal, Tax Partner at EY India, the Centre's proposals are an acknowledgement of the importance of consumption to the Indian economy. "This is a clear signal of confidence in India's domestic consumer base as the primary engine of growth, especially amid global trade uncertainties," he said. "By easing costs for households and enhancing affordability, this framework is poised to strengthen our consumption-driven economy."

(With inputs from Jigesh A.M.)

Simplified two-rate GST structure gets GoM's nod, awaits Council's approval

सरलीकृत दो-दर GST संरचना को GoM की मंजूरी, परिषद की स्वीकृति का इंतजार

The Group of Ministers (GoM) on Rate Rationalisation, formed by the Goods and Services Tax (GST) Council, has decided to accept the Centre's two-rate structure proposal for GST and will be recommending this to the GST Council, the GoM chairperson and Bihar Deputy Chief Minister Samrat Choudhary said on Thursday.

दर तर्कसंगतिकरण पर मंत्रियों का समूह (GoM), जिसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद द्वारा गठित किया गया था, ने केंद्र के दो-दर संरचना प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया है और इसे जीएसटी परिषद को अनुशंसा करेगा, गोएम के अध्यक्ष और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा।

This is the first of two steps the proposals must pass before implementation. The second step would be for the GST Council to accept the changes. "It was the Centre's proposal to end two slabs of GST, the 12% and 28% slabs," Mr. Choudhary told reporters. "We have recommended it, and now the GST Council will decide on this."

कार्यान्वयन से पहले प्रस्तावों को पारित करने के लिए यह दो चरणों में से पहला है। दूसरा चरण यह होगा कि

जीएसटी परिषद परिवर्तनों को स्वीकार करे। "यह केंद्र का प्रस्ताव था कि जीएसटी की दो स्लैब, 12% और 28% स्लैब को समाप्त किया जाए," श्री चौधरी ने पत्रकारों से कहा। "हमने इसकी सिफारिश की है और अब इस पर निर्णय जीएसटी परिषद करेगी।"

The Centre has not announced the date of the next GST Council meeting, although it is expected to take place in early September.

केंद्र ने अगली जीएसटी परिषद की बैठक की तारीख की घोषणा नहीं की है, हालांकि इसके सितंबर की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

Talking to *The Hindu*, Kerala Finance Minister K.N. Balagopal, a member of the GoM, said the proposal from the Union government was not discussed in detail by the GoM. "The discussion should happen within the GST Council, and the Council will take a final decision. The GoM has forwarded the



proposal of the Centre with some observations that it should discuss the possibility of loss in revenue for the States too. We have suggested that there should be a mechanism to compensate the States,” Mr. Balagopal said.

द हिंदू से बात करते हुए, गोएम के सदस्य और केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर गोएम द्वारा विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी। “चर्चा जीएसटी परिषद के भीतर होनी चाहिए और परिषद अंतिम निर्णय लेगी। गोएम ने केंद्र के प्रस्ताव को कुछ टिप्पणियों के साथ अग्रेषित किया है कि इसमें राज्यों के लिए राजस्व हानि की संभावना पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमने सुझाव दिया है कि राज्यों की भरपाई के लिए एक तंत्र होना चाहिए,” श्री बालगोपाल ने कहा।

- In his **Independence Day** speech, **Prime Minister Narendra Modi** announced that the “next-generation GST reforms” would be a “**Deepavali gift**” from the Centre. अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि “अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार” केंद्र की ओर से एक “दीवाली का तोहफा” होंगे।

GST Proposal Details and Impact जीएसटी प्रस्ताव के विवरण और प्रभाव

- The proposal involves retaining just the **5%** and **18%** slabs in the current GST structure and doing away with the **12%** and **28%** slabs. This would entail **99%** of the items in the **12%** slab moving to **5%**, and **90%** of the items in the **28%** slab moving to **18%**. The remaining items in the **28%** slab would be moved to a higher **40%** slab. However, the **compensation cess** currently being levied on the items in the **28%** slab would no longer apply. प्रस्ताव में मौजूदा जीएसटी संरचना में केवल **5%** और **18%** स्लैब को बनाए रखने और **12%** और **28%** स्लैब को समाप्त करने का प्रावधान है। इससे **12%** स्लैब की **99%** वस्तुएं **5%** में चली जाएंगी और **28%** स्लैब की **90%** वस्तुएं **18%** में चली जाएंगी। **28%** स्लैब की शेष वस्तुओं को उच्चतर **40%** स्लैब में ले जाया जाएगा। हालांकि, **28%** स्लैब की वस्तुओं पर वर्तमान में लगाया जा रहा **क्षतिपूर्ति उपकर** अब लागू नहीं होगा।
- **Relief for households**
परिवारों के लिए राहत
- “The proposed shift of most items promises tangible relief for households and **MSMEs**, while aligning with the government’s broader agenda of growth and financial inclusion,” said **Manoj Mishra**, Partner and Tax Controversy Management Leader at **Grant Thornton Bharat**. “अधिकांश वस्तुओं के प्रस्तावित बदलाव से परिवारों और **एमएसएमई** को ठोस राहत मिलने का वादा किया गया है, जबकि यह सरकार के व्यापक विकास और वित्तीय समावेशन एजेंडे के अनुरूप है,” ऐसा कहना है **ग्रंट थॉर्नटन भारत** के पार्टनर और टैक्स विवाद प्रबंधन लीडर **मनोज मिश्रा** का।
- However, he added that there needs to be “careful calibration” to preserve **revenue neutrality** and avoid inflationary pressures. हालांकि, उन्होंने जोड़ा कि **राजस्व तटस्थता** बनाए रखने और मुद्रास्फीति के दबाव से बचने के लिए “सावधानीपूर्वक समायोजन” की आवश्यकता है।
- According to **Saurabh Agarwal**, Tax Partner at **EY India**, the Centre’s proposals are an acknowledgement of the importance of consumption to the Indian economy. “This is a clear signal of confidence in India’s domestic consumer base as the primary engine of growth, especially amid global trade uncertainties,” he said. “By easing costs for households and enhancing affordability, this framework is poised to strengthen our consumption-driven economy.” **ईवाई इंडिया** के टैक्स पार्टनर **सौरभ अग्रवाल** के अनुसार, केंद्र के प्रस्ताव भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत के महत्व की स्वीकृति हैं। उन्होंने कहा, “यह भारत के घरेलू उपभोक्ता आधार में विश्वास का स्पष्ट संकेत है, जो विकास का प्राथमिक इंजन है, खासकर वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच।” “परिवारों की लागत कम करके और वहनीयता बढ़ाकर, यह ढांचा हमारी खपत-आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयार है।”



Panchayat sets example with cancer-control model

GS III: S&T

C. Maya

THIRUVANANTHAPURAM

A community-based cancer-control initiative which focused on sustained awareness campaigns, culturally sensitive communication and formation of a women volunteers' squad to help patients navigate the rigmarole of cancer treatment has evolved as a successful model for encouraging more women towards screening and early detection of breast cancer.

The "Kannapuram model", named after the Kannapuram grama panchayat in Kannur district, where the community-based initiative was tested out, is a success story writ by the



Grim reality: Breast cancer in women has increased 300-fold in Kerala in the last 25 years.

grama panchayat in association with the Malabar Cancer Centre (MCC).

The successful experiment has now found a place in the latest issue of WHO South-East Asia Journal of Public Health.

Following sustained,

planned community-level cancer awareness activities, 96% of the women above 30 years in the panchayat underwent breast cancer screening. Of the 6.2% referred for follow-up, 66.5% underwent further investigations. Breast cancer detection rate was 0.96 per 1,000, all in the early stages, who have all been treated and are now cancer-free.

Lack of awareness

In women, the breast cancer incidence has gone up 300-fold in Kerala in the last 25 years and accounts for 34% of all cancers in women. It is a sad reality that two-thirds of breast cancer cases are reported

at Stages 3 and 4.

Lack of awareness or misconceptions about risk factors and symptoms, fear of cancer diagnosis, social stigma, fear of catastrophic health expenditure are some of the reasons that affect women's participation in early screening programmes, making late-stage presentations and high mortality, the face of breast cancer in Kerala

"Women tend to back out of follow-up investigations out of fear. So we formed a dedicated women's squad of Kudumbasree leaders, who kept track of all these women, fixed appointments, organised travel and also accompanied the women to MCC to

ensure that they did not drop out," says K. Rethi, Kannapuram grama panchayat president.

The efficiency of the patient navigation strategy in the Kannapuram model was what perhaps made all the difference in this community-led cancer control initiative. The women squad of navigators acted as the bridge between the health system and community, motivated women to attend screening camps and the much-needed hand-holding and emotional support to the referred women, to manage the complexities of the healthcare system, undergo investigations and complete the treatment.

Panchayat sets example with cancer-control model पंचायत ने कैंसर-नियंत्रण मॉडल से उदाहरण पेश किया

A community-based cancer-control initiative which focused on sustained awareness campaigns, culturally sensitive communication and formation of a women volunteers' squad to help patients navigate the rigmarole of cancer treatment has evolved as a successful model for encouraging more women towards screening and early detection of breast cancer.

एक सामुदायिक-आधारित कैंसर-नियंत्रण पहल, जिसने लगातार जागरूकता अभियानों, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील संचार और महिला स्वयंसेवी दस्ते के गठन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि मरीज कैंसर उपचार की जटिलताओं को समझ सकें, एक सफल मॉडल के रूप में विकसित हुई है जो अधिक महिलाओं को स्तन कैंसर की जांच और प्रारंभिक पहचान की ओर प्रोत्साहित करती है।

- The "Kannapuram model", named after the Kannapuram grama panchayat in Kannur district, where the community-based initiative was tested out, is a success story writ by the grama panchayat in association with the Malabar Cancer Centre (MCC).
"कन्नपुरम मॉडल", जिसका नाम कन्नूर जिले की कन्नपुरम ग्राम पंचायत के नाम पर रखा गया है, जहां यह सामुदायिक पहल आजमाई गई थी, ग्राम पंचायत और मालाबार कैंसर सेंटर (MCC) के सहयोग से लिखी गई एक सफलता की कहानी है।
- The successful experiment has now found a place in the latest issue of WHO South-East Asia Journal of Public Health.
इस सफल प्रयोग को अब WHO साउथ-ईस्ट एशिया जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के नवीनतम अंक में स्थान मिला है।
- Following sustained, planned community-level cancer awareness activities, 96% of the women above 30 years in the panchayat underwent breast cancer screening. Of the 6.2% referred for follow-up, 66.5% underwent further investigations. Breast cancer detection rate was 0.96 per 1,000, all in the early stages, who have all been treated and are now cancer-



free.

निरंतर और योजनाबद्ध सामुदायिक-स्तरीय कैंसर जागरूकता गतिविधियों के बाद पंचायत में 30 वर्ष से अधिक आयु की 96% महिलाएं स्तन कैंसर की जांच से गुजरीं। इनमें से 6.2% को आगे की जांच के लिए भेजा गया, जिनमें से 66.5% ने और जांच कराई। स्तन कैंसर का पता लगाने की दर 0.96 प्रति 1,000 थी, सभी शुरुआती चरणों में, जिनका इलाज किया गया और वे अब कैंसर-मुक्त हैं।

- **Lack of awareness**
जागरूकता की कमी

- In women, the breast cancer incidence has gone up 300-fold in Kerala in the last 25 years and accounts for 34% of all cancers in women. It is a sad reality that two-thirds of breast cancer cases are reported at Stages 3 and 4.

महिलाओं में, केरल में पिछले 25 वर्षों में स्तन कैंसर की घटनाएं 300 गुना बढ़ गई हैं और यह महिलाओं में सभी कैंसर का 34% है। यह दुखद सच्चाई है कि स्तन कैंसर के दो-तिहाई मामले स्टेज 3 और 4 पर रिपोर्ट होते हैं।

- Lack of awareness or misconceptions about risk factors and symptoms, fear of cancer diagnosis, social stigma, fear of catastrophic health expenditure are some of the reasons that affect women's participation in early screening programmes, making late-stage presentations and high mortality, the face of breast cancer in Kerala.

जागरूकता की कमी या जोखिम कारकों और लक्षणों के बारे में भ्रांतियां, कैंसर निदान का डर, सामाजिक कलंक, स्वास्थ्य पर भारी खर्च का भय — ये कुछ कारण हैं जो महिलाओं की प्रारंभिक जांच कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रभावित करते हैं, जिससे देर-चरण में रोग का पता चलना और उच्च मृत्यु दर, केरल में स्तन कैंसर का चेहरा बन गया है।

- “Women tend to back out of follow-up investigations out of fear. So we formed a dedicated women's squad of Kudumbasree leaders, who kept track of all these women, fixed appointments, organised travel and also accompanied the women to MCC to ensure that they did not drop out,” says K. Rethi, Kannapuram grama panchayat president.


“महिलाएं डर के कारण आगे की जांच से पीछे हट जाती हैं। इसलिए हमने कुडुंबश्री नेताओं का एक विशेष महिला दस्ते का गठन किया, जिन्होंने इन महिलाओं का रिकॉर्ड रखा, अपॉइंटमेंट तय किए, यात्रा की व्यवस्था की और यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के साथ MCC तक गई कि वे बीच में न छोड़ें,” कहती हैं के. रेथी, कन्नपुरम ग्राम पंचायत अध्यक्ष।

- The efficiency of the patient navigation strategy in the Kannapuram model was what perhaps made all the difference in this community-led cancer control initiative. The women squad of navigators acted as the bridge between the health system and community, motivated women to attend screening camps and the much-needed hand-holding and emotional support to the referred women, to manage the complexities of the healthcare system, undergo investigations and complete the treatment.

कन्नपुरम मॉडल में रोगी मार्गदर्शन रणनीति की कुशलता ही शायद इस सामुदायिक कैंसर नियंत्रण पहल में सबसे बड़ा अंतर बनी। महिला मार्गदर्शक दस्ते ने स्वास्थ्य प्रणाली और समुदाय के बीच सेतु का काम किया, महिलाओं को जांच शिविरों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और जिन महिलाओं को जांच के लिए भेजा गया, उन्हें स्वास्थ्य प्रणाली की जटिलताओं से निपटने, जांच कराने और इलाज पूरा करने में आवश्यक सहयोग और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया।



SCIENCE



Cost of beauty

Investing in one's appearance is becoming increasingly common; it is further fuelled by social media and appearance-related pressures

The problem with these 'clinics' is two-pronged:

- They are run by practitioners who are not qualified to perform particular procedures
- They are unlicensed or unregistered and lack tie-ups with full-fledged medical centres

Doctors say that action by the Central and State governments has been inadequate

ILLUSTRATION:
SATHEESH VELLINEZHIL



The ugly side of India's unregulated 'cosmetology clinics'

With such clinics mushrooming across the country, doctors stress the need for regulation to safeguard patients; they say government should ensure that **only qualified practitioners** are performing procedures, clinics are licensed and properly equipped, while misleading claims or exaggerated advertisements are curtailed

GS III S&T
The Hindu Bureau

A simple day procedure in two sessions was all it meant to be, when in February, 49-year-old Kochi-native, Sameer (name changed) approached a "derma clinic" in the city for a hair transplant to restore his receding hairline.

Two days after his procedure, he went back to the clinic, in pain, in excruciating pain, with pus oozing out from his scalp. The clinic assured him that this was normal and put him on steroids and painkillers. But things were going horribly wrong.

Doctors at a major hospital where he was rushed to were horrified to see his putrefying scalp. Necrotising fasciitis is a serious and life-threatening bacterial infection where bacteria rapidly feed on human tissue. Innumerable skin grafts and reconstructive surgeries later, parts of his skull remain exposed and his treatment is continuing.

Sameer's finances are decimated, he continues to remain in pain, the mental trauma of what he went through haunts him, but he knows he is lucky to be alive today. Sameer's is not a unique story. Aesthetic, derma/skin and cosmetology clinics have mushroomed across the country, offering services ranging from hair transplants to skin lightening, from chemical peels and botox to anti-ageing therapies.

With the wellness sector booming in India – the market was worth USD 2.5 billion in 2024 and is projected to boom to USD 4 billion by 2033 as per market research company IMARC Group – experts are now calling for urgent regulation of the sector to safeguard patients.

Scope of problem
Wellness is now a big business. Investing in one's appearance is becoming increasingly common and further fuelled by social media and appearance-related pressures. This is exacerbated by the widespread mistaken perception that cosmetic procedures are easy and safe.

The problem with these 'clinics' is two-pronged: they are run by practitioners who are not qualified to perform particular procedures, and they are unlicensed or unregistered and lacking tie-ups with full-fledged medical centres.

Recently, a 50-year-old in Bhimavaram,



Vulnerable patients, especially women, are being preyed upon by unqualified individuals offering procedures without medical training

RAJETHA DAMISETTY
senior dermatologist

Andhra Pradesh walked into a local skincare clinic. A homemaker who had long struggled with skin issues, she had persuaded her husband to spend ₹3.5 lakh on a package of aesthetic treatments. The clinic, marketed on social media, promised visible results using "advanced" PRP (platelet-rich plasma) facials and derma procedures.

But something felt off from the start: no blood was ever drawn for her so-called PRP sessions. She was also given unlabelled creams to apply daily. Within weeks, her skin looked better, but only briefly. As soon as she stopped using the creams, she experienced severe withdrawal symptoms, redness, burning, scaling, and intense discomfort.

When she eventually sought help from a qualified dermatologist in Hyderabad, she was diagnosed with topical steroid withdrawal, a painful, medically complex condition. The creams had triggered dependency and long-term skin barrier damage. She had to be put on a carefully monitored six-week weaning protocol under medical supervision.

"Vulnerable patients, especially women, are being preyed upon by unqualified individuals offering dermatological procedures without medical training, without ethics, and without consequences," says Rajetha Damisetty, a senior dermatologist based in Hyderabad and national chairperson of the Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Leprologists (IADVL) Committee on Anti-Quackery, Legal and Ethics.

Low awareness
Low awareness among patients, and a burgeoning demand for services contribute to the problem. This is compounded by the rise of social media marketing and online platforms, allowing unscrupulous advertising by clinics to reach vast audiences, says Girish M. S., senior specialist and head, department of dermatology at the government-run ESIC Medical College and Model Hospital, Bengaluru.

In Kolkata for instance, advertisements of such clinics dot every wall and lamp post across the city offering: "Gain back hair in 7 days" or "Skin whitening and tightening in 10 days" with a nameless phone number given below.

Quackery in dermatology, according to Dr. Rajetha, involves individuals without the required medical qualifications or registrations

posting as specialists, and performing skin and hair-related procedures they are not authorised to carry out. These range from hair transplants and chemical peels to injectable treatments like PRP and Botox, which in many cases have resulted in serious complications and even death.

Dermatology is a medical speciality that covers diseases and cosmetic concerns related to the skin, hair and nails. But the term 'cosmetologist' is often misused to mislead the public. Cosmetology is not a medical field, it involves haircuts, makeup, manicures. It has no clinical or therapeutic component," she says.

According to Dr. Rajetha, the surge in unauthorised dermatology and cosmetology procedures is being driven by three broad categories of unqualified practitioners. The first are dentists, BDS and MDS graduates, who branch into aesthetics after completing short online fellowships or weekend certification courses. "These courses barely scratch the surface, yet many start offering complex procedures such as botox, fillers, or hair transplants," she says.

The second group includes practitioners from AYUSH systems who are not legally permitted to practise modern medicine but still administer allopathic dermatological treatments, often without oversight.

The third category are completely unqualified individuals, some with no medical background whatsoever. A fourth, less-discussed group includes MBBS or other speciality doctors (like ophthalmologists) offering dermatological services despite not being trained in the field.

"This is a systemic issue that is putting thousands of unsuspecting patients at risk every day," Dr. Rajetha warns.

Most quackery in India stems from aesthetic dermatology, says Avinash Pravin, dermatologist and member of the National IADVL Anti-Quackery Committee. "Only those with recognised qualifications can claim expertise, but this is poorly enforced," he adds. Today in Kerala, doctors say, qualified and certified plastic surgeons are outnumbered by "cosmetologists" whose qualifications remain suspect.

Additionally, several short-term 'courses' are offered by fake institutions where certificates are available at ₹1 lakh to ₹2 lakh. Quacks then perform the procedures at exorbitant costs, sometimes ten times more than what qualified dermatologists charge, says Marjunath Hulimani, president, IADVL, Karnataka.

Lack of enforcement
All clinics performing cosmetic procedures are supposed to follow the National Medical Commission's (NMC) Guideline on Aesthetic Surgery and Hair Transplant Procedures, which emphasises that only registered medical practitioners with adequate training may perform cosmetic surgeries.

"The main problem is that the lines are blurred now. The NMC and the Dental Council are also at odds over the issue. Most of these can be performed as simple day surgeries, which makes this a lucrative and "safe" business that everyone wants a share of," said M.S Jayasekhar, a plastic surgeon based in Thiruvananthapuram.

Another issue is clinics performing procedures that they are not licensed for, displaying the names of qualified doctors who may not be present at the clinic, as well as many

aesthetic centres not having tie-ups with secondary or tertiary healthcare facilities where patients can be referred to in case of emergencies.

Action lacking
Doctors say that action by the Central and State governments has been inadequate: there are police investigations in some cases, and a few clinics have had their licences cancelled but this barely scratches the surface of the problem and does little to deter unscrupulous practitioners.

The lack of regulatory oversight has created a fertile ground for malpractice, says Dr. Rajetha. "There are no dedicated bodies regularly inspecting these centres, and enforcement is virtually non-existent," she adds.

A spokesperson for the Kerala State Council for Modern Medicine said several clinics are being run without even basic facilities, sterilisation or infection control protocols. The fact that the Kerala Clinical Establishments Act is still not implemented fully is another issue which makes it difficult for authorities to keep track of the clinics and make accountability a huge casualty.

Some State medical councils and professional medical bodies including IADVL, however, have now begun to take action, but their scope is limited.

The IADVL, Karnataka with 1,525 members, has submitted a memorandum to the Karnataka Medical Council urging it to release a public notice cautioning the public about quackery in dermatology and cosmetology.

Mustaqeem Farooqui, consultant dermatologist and hair transplant surgeon, Techno India DAMA Hospital, Kolkata said that IADVL has begun an initiative where, if doctors found suspicious skin and hair treatment prescriptions, they could put them on their group in order to verify them, and this helps weed out quacks.

"But quacks are also becoming smarter and do not use their own names in the prescriptions now, so they are becoming harder to catch," he says.

The Telangana Medical Council (TGMCC) has been carrying out inspections across the State to identify and shut down clinics run by unqualified individuals. Clinics found guilty of gross negligence or deception may face charges under Sections 34 and 54 of the NMC Act, which specifically address impersonation of medical practitioners and unlawful practice, says G. Srinivas, vice-chairperson, TGMCC.

Regulation is the need of the hour to safeguard patients, doctors say, to ensure that no practitioner is offering or performing procedures they are not qualified to, clinics are licensed and have facilities in place and that misleading claims and exaggerated advertisements are curtailed. To do this, both the Central and State governments need to act. "We need stricter regulation through a dedicated law," says Dr. Pravin.

Patients in the meantime, must exercise caution, experts say. In the end, as Dr. Pravin puts it, "If it sounds too good to be true, it probably is."

(Inputs from Siddharth Kumar Singh in Hyderabad, C. Moya in Thiruvananthapuram, Afshan Yasmeen in Bengaluru, Athira Elasa Johnson in Chennai and Shrabana Chatterjee in Kolkata, compiled by Zubeeda Hamid. health@thehindu.co.in)

The ugly side of India's unregulated 'cosmetology clinics'

भारत में बिना नियमन वाले 'कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक्स' का बदसूरत पक्ष

- With such clinics mushrooming across the country, doctors stress the need for regulation to safeguard patients
ऐसे क्लिनिक्स के देशभर में तेजी से फैलने के साथ, डॉक्टर मरीजों की सुरक्षा के लिए नियमन की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- they say government should ensure that only qualified practitioners are performing procedures
उनका कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल योग्य प्रैक्टीशनर्स ही प्रक्रियाएं करें।
- clinics are licensed and properly equipped
क्लीनिक्स लाइसेंस प्राप्त और सही तरीके से सुसज्जित हों।
- while misleading claims or exaggerated advertisements are curtailed
जबकि भ्रामक दावे या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए विज्ञापन रोके जाएं।



Hair Transplant Complications and Rise of Unregulated Cosmetology Clinics

हेयर ट्रांसप्लांट जटिलताएँ और अनियमित कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिकों का बढ़ना

- A simple day procedure in two sessions was all it was meant to be, when in **February, 49-year-old Kochi-native, Sameer** (name changed) approached a “derma clinic” in the city for a hair transplant to restore **his receding hairline**.
यह एक साधारण **डे-प्रोसीजर** दो सेशनों में होना था, जब **फरवरी में, 49 वर्षीय कोच्चि निवासी समीर** (नाम बदला गया) अपने झड़ते बालों की रेखा बहाल करने के लिए शहर में एक “डर्मा क्लिनिक” पहुँचे।
- Two days after his procedure, he went back to the clinic, in panic, in **excruciating pain, with pus oozing out from his scalp**.
प्रक्रिया के **दो दिन बाद**, वह क्लिनिक में **घबराहट और असहनीय दर्द** के साथ लौटे, जब उनकी खोपड़ी से **मवाद** निकल रहा था।
- The clinic assured him that this was normal and put him on **steroids and painkillers**. But things were going horribly wrong.
क्लिनिक ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह सामान्य है और उन्हें **स्टेरॉयड और पेनकिलर्स** पर डाल दिया। लेकिन हालात बेहद बिगड़ रहे थे।
- Doctors at a **major hospital** where he was rushed to were horrified to see his **putrefying scalp. Necrotising fasciitis** is a serious and life-threatening bacterial infection where bacteria rapidly feed on human tissue.
जिस **बड़े अस्पताल** में उन्हें ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर उनकी **सड़ चुकी खोपड़ी** देखकर भयभीत हो गए। **नेक्रोटाइजिंग फासिआइटिस** एक गंभीर और जानलेवा बैक्टीरियल संक्रमण है जहाँ बैक्टीरिया तेजी से मानव ऊतक को नष्ट करते हैं।
- Innumerable **skin grafts and reconstructive surgeries** later, parts of his **skull remain exposed** and his treatment is continuing.
अनगिनत **स्किन ग्राफ्ट्स और पुनर्निर्माण सर्जरी** के बाद भी उनकी **खोपड़ी के हिस्से** खुले हुए हैं और उनका इलाज जारी है।
- Sameer’s **finances are decimated**, he continues to remain in pain, the **mental trauma** of what he went through haunts him, but he knows he is lucky to be alive today.
समीर की **वित्तीय स्थिति पूरी तरह बर्बाद** हो चुकी है, वह लगातार दर्द में रहते हैं, जो **मानसिक आघात** उन्होंने झेला है वह उन्हें सताता है, लेकिन वह जानते हैं कि आज जीवित रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है।
- Sameer’s is not a unique story. **Aesthetic, derma/skin and cosmetology clinics have mushroomed across the country, offering services ranging from hair transplants to skin lightening, from chemical peels and botox to anti-ageing therapies**.
समीर की कहानी अनोखी नहीं है। पूरे देश में **एस्थेटिक, डर्मा/स्किन और कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक** तेजी से बढ़ गए हैं, जो **हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर स्किन लाइटनिंग, केमिकल पील्स, बोटॉक्स और एंटी-एजिंग थेरेपी** तक की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
- With the **wellness sector booming in India** — the **market was worth USD 2.5 billion in 2024 and is projected to boom to USD 4 billion by 2033** as per market research company **IMARC Group** — experts are now calling for **urgent regulation** of the sector to safeguard patients.
भारत में **वेलनेस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है** — **2024 में इसका मूल्य USD 2.5 बिलियन** था और **2033 तक यह USD 4 बिलियन** तक पहुँचने का अनुमान है (मार्केट रिसर्च कंपनी **IMARC Group** के अनुसार) — इसलिए विशेषज्ञ अब मरीजों की सुरक्षा के लिए **तत्काल नियमन** की मांग कर रहे हैं।

Scope of problem

समस्या का दायरा

- Wellness is now a **big business**. Investing in one’s appearance is becoming increasingly common and further fuelled by **social media and appearance-related pressures**.
वेलनेस अब एक **बड़ा व्यापार** बन चुका है। अपनी **दिखावट में निवेश** करना अब सामान्य होता जा रहा है और इसे **सोशल मीडिया और दिखावट से जुड़े दबावों** से और बढ़ावा मिल रहा है।
- This is exacerbated by the widespread mistaken perception that **cosmetic procedures are easy and safe**.
इसे और बढ़ावा देता है यह व्यापक गलत धारणा कि **कॉस्मेटिक प्रक्रियाएँ आसान और सुरक्षित** होती हैं।



- The problem with these 'clinics' is two-pronged: they are run by practitioners who are **not qualified** to perform particular procedures, and they are **unlicensed or unregistered** and lacking tie-ups with **full-fledged medical centres**.
इन 'क्लीनिकों' की समस्या दोहरी है: इन्हें ऐसे लोग चलाते हैं जो **योग्य नहीं** होते विशेष प्रक्रियाएँ करने के लिए, और ये **लाइसेंस रहित या अपंजीकृत** होते हैं तथा इनका **पूर्ण विकसित मेडिकल सेंटर्स** से कोई संबंध नहीं होता।
- Recently, a **50-year-old in Bhimavaram, Andhra Pradesh** walked into a local skincare clinic. A homemaker who had long struggled with skin issues, she had persuaded her husband to spend **₹3.5 lakh** on a package of aesthetic treatments.
हाल ही में, **आंध्र प्रदेश के भिमावरम** में एक **50 वर्षीय महिला** एक स्थानीय स्किनकेयर क्लिनिक गईं। वह एक गृहिणी थीं जो लंबे समय से त्वचा की समस्याओं से जूझ रही थीं, उन्होंने अपने पति को **₹3.5 लाख** खर्च करने के लिए राज़ी किया एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट पैकेज पर।
- The clinic, marketed on **social media**, promised visible results using '**advanced**' PRP (platelet-rich plasma) facials and derma procedures.
क्लिनिक, जिसे **सोशल मीडिया** पर प्रचारित किया गया था, ने '**एडवांस्ड**' PRP (प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा) फेशियल्स और डर्मा प्रक्रियाओं से स्पष्ट परिणाम का वादा किया।
- But something felt off from the start: no blood was ever drawn for her so-called PRP sessions. She was also given **unlabelled creams** to apply daily.
लेकिन शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लगा: उनकी तथाकथित PRP सेशंस के लिए कभी खून नहीं लिया गया। उन्हें प्रतिदिन लगाने के लिए **बिना लेबल की क्रीम** दी गईं।
- Within weeks, her skin looked better, but only briefly. As soon as she stopped using the creams, she experienced severe **withdrawal symptoms, redness, burning, scaling, and intense discomfort**.
कुछ हफ्तों में उनकी त्वचा बेहतर दिखने लगी, लेकिन यह केवल थोड़े समय के लिए था। जैसे ही उन्होंने क्रीम लगाना बंद किया, उन्हें गंभीर **विदड़ौअल लक्षण, लालिमा, जलन, स्केलिंग और असहजता** महसूस हुईं।
- When she eventually sought help from a **qualified dermatologist in Hyderabad**, she was diagnosed with **topical steroid withdrawal, a painful, medically complex condition**.
जब उन्होंने अंततः **हैदराबाद के एक योग्य त्वचा विशेषज्ञ** से मदद ली, तो उन्हें **टॉपिकल स्टेरॉयड विदड़ौअल** का निदान हुआ, जो एक दर्दनाक और चिकित्सकीय रूप से जटिल स्थिति है।
- The creams had triggered **dependency and long-term skin barrier damage**. She had to be put on a carefully monitored **six-week weaning protocol** under medical supervision.
उन क्रीम ने **निर्भरता** और लंबे समय का **स्किन बैरियर डैमेज** पैदा कर दिया। उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में **छह-सप्ताह का वीनिंग प्रोटोकॉल** अपनाना पड़ा।
- "Vulnerable patients, especially women, are being preyed upon by **unqualified individuals** offering dermatological procedures **without medical training, without ethics, and without consequences**," says **Rajetha Damisetty**, a senior dermatologist based in Hyderabad and national chairperson of the **Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Leprologists (IADVL) Committee on Anti-Quackery, Legal and Ethics**.
"कमजोर मरीज, खासकर महिलाएँ, अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शिकार बनाए जा रहे हैं, जो **बिना मेडिकल ट्रेनिंग, बिना नैतिकता और बिना किसी परिणाम के डर्माटोलॉजिकल प्रक्रियाएँ** प्रदान कर रहे हैं," ऐसा कहना है **राजेथा डामिसेट्टी** का, जो हैदराबाद की एक वरिष्ठ त्वचा विशेषज्ञ और **इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट्स, वेनेरियोलॉजिस्ट्स और लेप्रोलॉजिस्ट्स (IADVL) कमेटी ऑन एंटी-क्वैकरी, लीगल और एथिक्स** की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

Low awareness

कम जागरूकता

- Low awareness among patients, and a **burgeoning demand for services** contribute to the problem.
मरीजों में कम जागरूकता और सेवाओं की **तेजी से बढ़ती मांग** इस समस्या में योगदान देती है।
- This is compounded by the rise of **social media marketing** and **online platforms**, allowing unscrupulous advertising by clinics to reach vast audiences, says **Girish M. S.**, senior specialist and head, department of dermatology at the government-run **ESIC Medical College and Model Hospital, Bengaluru**.
यह समस्या **सोशल मीडिया मार्केटिंग** और **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** के बढ़ने से और गंभीर हो गई है, जिससे



क्लीनिकों के भ्रामक विज्ञापन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं, कहते हैं **गिरीश एम. एस.**, वरिष्ठ विशेषज्ञ और प्रमुख, त्वचाविज्ञान विभाग, **ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और मॉडल हॉस्पिटल, बेंगलुरु**।

- In **Kolkata** for instance, advertisements of such clinics dot every wall and lamp post across the city offering: '**Gain back hair in 7 days**' or '**Skin whitening and tightening in 10 days**' with a nameless phone number given below.
उदाहरण के लिए, **कोलकाता** में, ऐसे क्लीनिकों के विज्ञापन शहर की हर दीवार और लैम्प पोस्ट पर देखे जाते हैं, जिनमें लिखा होता है: '**7 दिनों में बाल वापस पाएं**' या '**10 दिनों में त्वचा गोरी और टाइट करें**', और नीचे एक बिना नाम वाला फोन नंबर दिया होता है।
- **Quackery in dermatology**, according to **Dr. Rajetha**, involves individuals without the required **medical qualifications** or **registrations** posing as specialists, and performing skin and hair-related procedures they are not authorised to carry out.
डॉ. राजेथा के अनुसार **त्वचा-विज्ञान में झोलाछाप** उन व्यक्तियों से जुड़ा है जिनके पास आवश्यक **चिकित्सीय योग्यता** या **पंजीकरण** नहीं है, फिर भी वे विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं और त्वचा व बालों से जुड़े ऐसे उपचार करते हैं जिनकी उन्हें अनुमति नहीं है।
- These range from **hair transplants** and **chemical peels** to injectable treatments like **PRP** and **Botox**, which in many cases have resulted in **serious complications** and even **death**. इनमें **हेयर ट्रांसप्लांट**, **केमिकल पील्स**, और **PRP व बोटॉक्स** जैसे इंजेक्टेबल उपचार शामिल हैं, जिनके कारण कई मामलों में **गंभीर जटिलताएँ** और यहां तक कि **मृत्यु** भी हुई है।
- "**Dermatology** is a medical speciality that covers diseases and cosmetic concerns related to the **skin, hair and nails**. But the term '**cosmetologist**' is often misused to mislead the public. **Cosmetology** is not a medical field, it involves **haircuts, makeup, manicures**. It has **no clinical or therapeutic component**," she says.
"त्वचा-विज्ञान एक चिकित्सा विशेषज्ञता है जिसमें **त्वचा, बाल और नाखूनों** से जुड़ी बीमारियाँ और कॉस्मेटिक समस्याएँ आती हैं। लेकिन '**कॉस्मेटोलॉजिस्ट**' शब्द का अक्सर जनता को भ्रमित करने के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है। **कॉस्मेटोलॉजी** चिकित्सा क्षेत्र नहीं है, इसमें केवल **बाल कटवाना, मेकअप, मैनीक्योर** शामिल हैं। इसमें **कोई क्लिनिकल या चिकित्सीय तत्व** नहीं है," वह कहती हैं।
- According to **Dr. Rajetha**, the surge in unauthorised dermatology and cosmetology procedures is being driven by three broad categories of **unqualified practitioners**.
डॉ. राजेथा के अनुसार, अनधिकृत त्वचा-विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी प्रक्रियाओं की बढ़ती तीनों मुख्य प्रकार के **अयोग्य प्रैक्टिशनर्स** द्वारा हो रही है।
 - The first are **dentists (BDS and MDS graduates)**, who branch into aesthetics after completing short **online fellowships** or **weekend certification courses**. "These courses barely scratch the surface, yet many start offering complex procedures such as **botox, fillers, or hair transplants**," she says.
पहले हैं **डेंटिस्ट (बीडीएस और एमडीएस ग्रेजुएट्स)**, जो छोटे ऑनलाइन फेलोशिप्स या **वीकेंड सर्टिफिकेशन कोर्सेस** करने के बाद एस्थेटिक्स में आ जाते हैं। "ये कोर्स सिर्फ सतही जानकारी देते हैं, फिर भी कई लोग **बोटॉक्स, फिलर्स या हेयर ट्रांसप्लांट्स** जैसे जटिल उपचार शुरू कर देते हैं," वह कहती हैं।
 - The second group includes **practitioners from AYUSH systems**, who are not legally permitted to practise modern medicine but still administer **allopathic dermatological treatments**, often without oversight.
दूसरा समूह **आयुष प्रणाली से जुड़े प्रैक्टिशनर्स** का है, जिन्हें कानूनी रूप से आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी वे **एलोपैथिक त्वचा-विज्ञान उपचार** करते हैं, अक्सर बिना निगरानी के।
 - The third category are **completely unqualified individuals**, some with no medical background whatsoever.
तीसरा वर्ग पूरी तरह से **अयोग्य व्यक्तियों** का है, जिनमें से कुछ का चिकित्सा पृष्ठभूमि से कोई संबंध नहीं होता।
 - A fourth, less-discussed group includes **MBBS or other speciality doctors (like ophthalmologists)** offering dermatological services despite not being trained in the field.
चौथा, कम चर्चित वर्ग उन **एमबीबीएस या अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों (जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञों)** का है, जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षित न होने के बावजूद त्वचा-विज्ञान सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- "This is a **systemic issue** that is putting **thousands of unsuspecting patients at risk** every day," **Dr. Rajetha** warns.



“यह एक व्यवस्थित समस्या है जो हर दिन हजारों अनजान मरीजों को खतरे में डाल रही है,” चेतावनी देती हैं डॉ. राजेथा।

- Most **quackery in India** stems from **aesthetic dermatology**, says **Avinash Pravin**, dermatologist and member of the **National IADVL Anti-Quackery Committee**. “Only those with recognised qualifications can claim expertise, but this is poorly enforced,” he adds.
भारत में ज्यादातर झोलाछाप चिकित्सा एस्थेटिक त्वचा-विज्ञान से आती है, कहते हैं अविनाश प्रविण, त्वचा रोग विशेषज्ञ और नेशनल IADVL एंटी-क्वैकरी कमेटी के सदस्य। “केवल मान्यता प्राप्त योग्यताओं वाले ही विशेषज्ञता का दावा कर सकते हैं, लेकिन इसका सही तरह से पालन नहीं होता,” वे जोड़ते हैं।
- Today in **Kerala**, doctors say, qualified and certified **plastic surgeons** are outnumbered by “**cosmetologists**” whose qualifications remain suspect.
आज केरल में, डॉक्टरों का कहना है कि योग्य और प्रमाणित प्लास्टिक सर्जन की संख्या “कॉस्मेटोलॉजिस्ट्स” से कम है, जिनकी योग्यताएँ संदिग्ध हैं।
- Additionally, several short-term ‘courses’ are offered by **fake institutions** where certificates are available at **₹1 lakh to ₹2 lakh**.
इसके अलावा, कई अल्पकालिक ‘कोर्सेस’ फर्जी संस्थानों द्वारा पेश किए जाते हैं, जहाँ सर्टिफिकेट्स ₹1 लाख से ₹2 लाख में उपलब्ध हैं।
- Quacks then perform the procedures at **exorbitant costs**, sometimes **ten times more** than what qualified dermatologists charge, says **Manjunath Hulimani**, president, **IADVL, Karnataka**.
झोलाछाप तब उपचार बेहद महंगे दामों पर करते हैं, कभी-कभी योग्य त्वचा-विशेषज्ञों की फीस से दस गुना अधिक, कहते हैं मंजुनाथ हुलिमणि, अध्यक्ष, IADVL, कर्नाटक।

Lack of enforcement प्रवर्तन की कमी

- All clinics performing cosmetic procedures are supposed to follow the **National Medical Commission’s (NMC) Guideline** on Aesthetic Surgery and Hair Transplant Procedures, which emphasises that only **registered medical practitioners** with adequate training may perform cosmetic surgeries.
सभी क्लीनिक जो कॉस्मेटिक प्रक्रियाएँ करती हैं, उन्हें **नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की गाइडलाइन** का पालन करना चाहिए जो एस्थेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं पर है, जिसमें यह ज़ोर दिया गया है कि केवल **पंजीकृत चिकित्सक** जिनके पास पर्याप्त प्रशिक्षण है, वे ही कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं।
- “The main problem is that the lines are blurred now. The **NMC** and the **Dental Council** are also at odds over the issue. Most of these can be performed as simple day surgeries, which makes this a **lucrative** and “safe” business that everyone wants a share of,” said **M.S Jayasekhar**, a plastic surgeon based in Thiruvananthapuram.
“मुख्य समस्या यह है कि अब सीमाएँ धुंधली हो गई हैं। **NMC** और **डेंटल काउंसिल** भी इस मुद्दे पर असहमत हैं। इनमें से अधिकांश को सरल डे सर्जरी के रूप में किया जा सकता है, जो इसे एक **लाभदायक** और “सुरक्षित” व्यवसाय बनाता है जिसमें हर कोई हिस्सा चाहता है,” ऐसा कहा **एम.एस. जयशेखर**, त्रिवेंद्रम स्थित प्लास्टिक सर्जन ने।
- Another issue is clinics performing procedures that they are not licensed for, displaying the names of **qualified doctors** who may not be present at the clinic, as well as many aesthetic centres not having tie-ups with **secondary or tertiary healthcare facilities** where patients can be referred to in case of emergencies.
एक और समस्या यह है कि कई क्लीनिक उन प्रक्रियाओं को कर रहे हैं जिनके लिए वे **लाइसेंस प्राप्त नहीं** हैं, और वहाँ पर **योग्य डॉक्टरों** के नाम प्रदर्शित करते हैं जो क्लिनिक में मौजूद भी नहीं होते, साथ ही कई एस्थेटिक केंद्रों का **माध्यमिक या तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं** से टाई-अप नहीं होता जहाँ आपात स्थिति में मरीजों को भेजा जा सके।

Action lacking कार्रवाई की कमी

- Doctors say that action by the **Central and State governments** has been inadequate: there are police investigations in some cases, and a few clinics have had their licences cancelled but this barely scratches the surface of the problem and does little to deter unscrupulous



practitioners.

डॉक्टरों का कहना है कि **केंद्र और राज्य सरकारों** की कार्रवाई अपर्याप्त रही है: कुछ मामलों में पुलिस जांच हुई है और कुछ क्लीनिकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, लेकिन यह समस्या की सतह को ही छूता है और बेईमान चिकित्सकों को रोकने के लिए बहुत कम करता है।

- The lack of **regulatory oversight** has created a fertile ground for malpractice, says **Dr. Rajetha**. "There are no dedicated bodies regularly inspecting these centres, and enforcement is virtually non-existent," she adds.

नियामक निगरानी की कमी ने कदाचार के लिए उपजाऊ जमीन बना दी है, ऐसा कहती हैं **डॉ. राजेथा**। "इन केंद्रों की नियमित जांच करने वाली कोई समर्पित संस्थाएँ नहीं हैं, और प्रवर्तन लगभग अस्तित्वहीन है," वह जोड़ती हैं।

- A spokesperson for the **Kerala State Council for Modern Medicine** said several clinics are being run without even basic facilities, sterilisation or infection control protocols. The fact that the **Kerala Clinical Establishments Act** is still not implemented fully is another issue which makes it difficult for authorities to keep track of the clinics and makes accountability a huge casualty.

केरल राज्य परिषद आधुनिक चिकित्सा के प्रवक्ता ने कहा कि कई क्लिनिक बिना बुनियादी सुविधाओं, स्टरलाइजेशन या संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल के ही चल रहे हैं। यह तथ्य कि **केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट** अब तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, एक और समस्या है जिससे अधिकारियों के लिए क्लीनिकों पर नज़र रखना कठिन हो जाता है और जवाबदेही की भारी हानि होती है।

- Some State medical councils and professional medical bodies including **IADVL** however, have now begun to take action, but their scope is limited.

हालांकि कुछ राज्य चिकित्सा परिषदों और पेशेवर चिकित्सा निकायों, जिनमें **IADVL** शामिल है, ने अब कार्रवाई शुरू की है, लेकिन उनका दायरा सीमित है।

- The **IADVL, Karnataka with 1,525 members**, has submitted a memorandum to the Karnataka Medical Council urging it to release a public notice cautioning the public about **quackery** in dermatology and cosmetology.

IADVL, कर्नाटक ने **1,525 सदस्यों** के साथ कर्नाटक मेडिकल काउंसिल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें जनता को त्वचा रोग और कॉस्मेटोलॉजी में **झोलाछाप** से सावधान करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने का आग्रह किया गया है।

- **Mustaqeem Farooqui**, consultant dermatologist and hair transplant surgeon, Techno India DAMA Hospital, Kolkata said that **IADVL** has begun an initiative where, if doctors found suspicious skin and hair treatment prescriptions, they could put them on their group in order to verify them, and this helps weed out quacks.

मुस्ताक़ीम फारूकी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, टेक्नो इंडिया डामा अस्पताल, कोलकाता ने कहा कि **IADVL** ने एक पहल शुरू की है जिसमें यदि डॉक्टरों को संदिग्ध त्वचा और बाल उपचार के प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो वे उन्हें अपने समूह में डालकर सत्यापित कर सकते हैं, और यह झोलाछापों को बाहर करने में मदद करता है।

- "But quacks are also becoming smarter and do not use their own names in the prescriptions now, so they are becoming harder to catch," he says.

"लेकिन झोलाछाप भी अब चालाक हो रहे हैं और अब प्रिस्क्रिप्शन में अपना नाम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उन्हें पकड़ना कठिन होता जा रहा है," वे कहते हैं।

- The **Telangana Medical Council (TGMC)** has been carrying out inspections across the State to identify and shut down clinics run by **unqualified individuals**. Clinics found guilty of gross negligence or deception may face charges under **Sections 34 and 54 of the NMC Act**, which specifically address impersonation of medical practitioners and unlawful practice, says **G. Srinivas**, vice-chairperson, TGMC.

तेलंगाना मेडिकल काउंसिल (TGMC) पूरे राज्य में निरीक्षण कर रही है ताकि **अयोग्य व्यक्तियों** द्वारा चलाए जा रहे क्लीनिकों की पहचान की जा सके और उन्हें बंद किया जा सके। गंभीर लापरवाही या धोखाधड़ी के दोषी पाए गए क्लिनिकों पर **NMC अधिनियम की धारा 34 और 54** के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं, जो विशेष रूप से चिकित्सकों की नकल और अवैध प्रैक्टिस को संबोधित करते हैं, ऐसा कहते हैं **जी. श्रीनिवास**, उपाध्यक्ष, TGMC।

- Regulation is the need of the hour to safeguard patients, doctors say, to ensure that no practitioner is offering or performing procedures they are not qualified to, clinics are licensed and have facilities in place and that misleading claims and exaggerated advertisements are curtailed. To do this, both the **Central and State governments** need to act. "We need stricter regulation through a **dedicated law**," says **Dr. Pravin**.



मरीजों की सुरक्षा के लिए नियमन समय की आवश्यकता है, डॉक्टर कहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई चिकित्सक ऐसी प्रक्रियाएँ पेश या प्रदर्शन नहीं कर रहा है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, क्लिनिक लाइसेंस प्राप्त हों और उनके पास आवश्यक सुविधाएँ हों और भ्रामक दावे और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए विज्ञापन सीमित हों। ऐसा करने के लिए **केंद्र और राज्य सरकारों** दोनों को कार्य करना होगा। “हमें एक **विशेष कानून** के माध्यम से सख्त नियमन की आवश्यकता है,” कहते हैं **डॉ. प्रवीण**।

- Patients in the meantime, must exercise caution, experts say. In the end, as **Dr. Pravin** puts it, “If it sounds too good to be true, it probably is.”
इस बीच मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषज्ञ कहते हैं। अंत में, जैसा कि **डॉ. प्रवीण** कहते हैं, “यदि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो संभवतः यह झूठ है।”

India business activity fastest in at least two decades: PMI

GS III: Industries

Reuters
BENGALURU

India private sector activity expanded at the fastest pace on record in August, fuelled by a robust surge in demand led by the dominant services sector, which allowed firms to hike prices at the fastest clip in over 12 years, a survey showed on Thursday.

The latest results stand in contrast to expectations for a slowdown in economic growth in Asia's third-largest economy to average 6.4% this fiscal year after an unexpectedly strong 7.4% expansion during the first three months of 2025.

HSBC's flash India Composite Purchasing Managers' Index (PMI), compiled by S&P Global, rose to 65.2 in August from 61.1, confounding expectations in a Reuters poll for a decline to 60.5.

It was the highest reading since the survey began in December 2005 and remained above the 50-mark that separates growth from contraction for the 49th month.

Record expansion was underpinned by the sharpest uptick in total new orders - a key gauge of demand - in nearly 18 years.

The services sector led growth, with its activity index soaring to a survey high of 65.6. The manufacturing sector also showed significant strength - its preliminary PMI rose to 59.8, its highest reading since January 2008.

India business activity fastest in at least two decades: PMI

भारत का व्यापार गतिविधि कम से कम दो दशकों में सबसे तेज़: पीएमआई

India private sector activity expanded at the fastest pace on record in August, fuelled by a robust surge in demand led by the dominant services sector, which allowed firms to hike prices at the fastest clip in over 12 years, a survey showed on Thursday.

भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधि ने अगस्त में रिकॉर्ड पर सबसे तेज़ गति से विस्तार किया, जो प्रमुख सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित मजबूत मांग वृद्धि से प्रेरित था, जिसने कंपनियों को 12 वर्षों से अधिक समय में सबसे तेज़ गति से कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी, एक सर्वेक्षण ने गुरुवार को दिखाया।

- The latest results stand in contrast to expectations for a slowdown in economic growth in **Asia's third-largest economy** to average 6.4% this fiscal year after an unexpectedly strong 7.4% expansion during the first three months of 2025.

नवीनतम परिणाम इस उम्मीद के विपरीत हैं कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि इस वित्तीय वर्ष में औसतन 6.4% तक धीमी हो जाएगी, जबकि 2025 के पहले तीन महीनों में अप्रत्याशित रूप से मजबूत 7.4% विस्तार हुआ।

- **HSBC's Cash India Composite Purchasing Managers' Index (PMI)**, compiled by S&P Global, rose to 65.2 in August from 61.1, confounding expectations in a Reuters poll for a decline to 60.5.

एचएसबीसी का फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स' इंडेक्स (पीएमआई), जो एसएंडपी ग्लोबल द्वारा तैयार किया गया, अगस्त में 61.1 से बढ़कर 65.2 हो गया, जो रॉयटर्स पोल की उम्मीदों को धता बताते हुए 60.5 तक की गिरावट के विपरीत था।

- It was the highest reading since the survey began in **December 2005** and remained above the **50-mark** that separates growth from contraction for the **49th month**. यह **दिसंबर 2005** में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से सबसे अधिक रीडिंग थी और यह **49वें महीने तक 50-अंक** से ऊपर रहा, जो वृद्धि को संकुचन से अलग करता है।

- Record expansion was underpinned by the sharpest uptick in total **new orders** - a key gauge of demand - in nearly **18 years**.

रिकॉर्ड विस्तार को लगभग **18 वर्षों** में कुल **नए आदेशों** - मांग का एक प्रमुख संकेतक - में सबसे तेज़ वृद्धि द्वारा समर्थित किया गया।

- The **services sector** led growth, with its activity index soaring to a survey high of **65.6**. The **manufacturing sector** also showed significant strength - its preliminary PMI rose to **59.8**, its highest reading since **January 2008**.

सेवा क्षेत्र ने वृद्धि का नेतृत्व किया, जिसकी गतिविधि सूचकांक सर्वेक्षण उच्च 65.6 तक पहुंच गई। विनिर्माण क्षेत्र ने भी महत्वपूर्ण ताकत दिखाई - इसका प्रारंभिक पीएमआई 59.8 तक बढ़ा, जो **जनवरी 2008** के बाद से इसकी सबसे ऊंची रीडिंग है।



Purchasing Managers' Index (PMI)

- The **Purchasing Managers' Index (PMI)** is an **economic indicator** that reflects the **business activity level** in a country's manufacturing and services sector.
- It is based on surveys of **purchasing managers** who provide information about **production, orders, employment, inventory, and supplier performance**.
- PMI is considered a **leading indicator** of economic health because it signals changes in economic trends before official statistics are released.

Types of PMI

1. **Manufacturing PMI**
 - Measures business conditions in the **manufacturing sector** (factories, production).
 - Key parameters: output, new orders, employment, stock of purchases, suppliers' delivery times.
2. **Services PMI**
 - Tracks performance of the **services sector** (IT, banking, hospitality, trade, etc.).
3. **Composite PMI**
 - Weighted average of **manufacturing and services PMI**.
 - Gives a broader picture of the overall economy.

How PMI is Calculated

- Conducted through **monthly surveys** of purchasing managers.
- Each parameter is given a weight and converted into an index.
- **PMI Scale:**
 - **Above 50:** Expansion (growth)
 - **Below 50:** Contraction (decline)
 - **= 50:** No change

PMI in India

- **Compiled by:** S&P Global (earlier IHS Markit).
- **Released by:** Monthly, published by financial agencies and Reserve Bank of India (RBI) monitors it closely.
- **Coverage:**
 - **400 industrial companies** (for Manufacturing PMI)
 - **400 service companies** (for Services PMI)



As RS passes real money gaming ban bill, companies at crossroads

GS III:

AROON DEEP

NEW DELHI

With The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, passed by the Rajya Sabha on Thursday, the legislation is now headed to President Droupadi Murmu for assent after which it will be curtains for firms such as Dream11, MPL and PokerBaazi's with main revenue generating activity being pay-to-play stakes-based gaming.

"It is the responsibility of the government and Parliament to take strict action against malpractices in society, like chit funds," Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw said in the Lok Sabha.

"Problems [due to online money games] have led to several families be-



Dangerous game: "Problems [due to online money games] led to several families being destroyed, says Vaishnaw. GETTY IMAGES/ISTOCK

ing destroyed."

Quick enforcement

Mr. Vaishnaw said the law would not be subject to the prolonged timelines of other key laws worked on by the IT Ministry, namely the Digital Personal Data Protection Act, 2023 and the Information Technology (Intermediary Guidelines

and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

"With a prohibition, you can't do consultations," Mr. Vaishnaw said.

The industry appealed to Union Home Minister Amit Shah for reprieve.

Zupee, a prominent RMG ludo app, said it was "discontinuing" its "paid" games. Nazara Technolo-

gies Ltd., which invested \$122 million in PokerBaazi, saw its shares dip 2% on Thursday. It had slid about 15% since the Bill was introduced in the Lok Sabha.

"Nazara has no direct exposure to real money gaming (RMG) businesses," the firm said in a filing.

"The company's only indirect exposure to RMG is its 46.07% stake in Moonshine Technologies Private Ltd. (PokerBaazi).

'No financial impact'

"As Nazara does not hold majority stake or exercise control, Moonshine's revenue is not consolidated in the firm's financial statements and has no impact on the company's reported revenue or EBITDA."

Delta Corp Ltd., a casino and gaming company, also saw its shares dip 3.14%.

As RS passes real money gaming ban bill, companies at crossroads

जैसे ही राज्यसभा ने वास्तविक धन गेमिंग प्रतिबंध विधेयक पारित किया, कंपनियां चौराहे पर

With The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, passed by the Rajya Sabha on Thursday, the legislation is now headed to President Droupadi Murmu for assent after which it will be curtains for firms such as Dream11, MPL and PokerBaazi's with main revenue generating activity being pay-to-play stakes-based gaming.

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 के प्रचार और विनियमन को गुरुवार को राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के साथ, अब यह कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए जा रहा है,



जिसके बाद ड्रीम11, एमपीएल और पोकरबाज़ी जैसी कंपनियों के लिए परदा गिर जाएगा जिनकी मुख्य आय का स्रोत दांव-आधारित पे-टू-प्ले गेमिंग है।

- “It is the responsibility of the government and Parliament to take strict action against malpractices in society, like chit funds,” **Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw** said in the **Lok Sabha**.
“यह सरकार और संसद की जिम्मेदारी है कि वह समाज में कदाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जैसे चिट फंड,” ऐसा **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव** ने **लोकसभा** में कहा।
- “Problems [due to online money games] have led to several families being destroyed.”
“[ऑनलाइन धन खेलों के कारण] समस्याओं ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है।”
- **Quick enforcement**
त्वरित प्रवर्तन
- Mr. Vaishnaw said the law would not be subject to the prolonged timelines of other key laws worked on by the **IT Ministry**, namely the **Digital Personal Data Protection Act, 2023** and the **Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021**.
श्री वैष्णव ने कहा कि यह कानून **आईटी मंत्रालय** द्वारा बनाए गए अन्य प्रमुख कानूनों की लंबी समयसीमा के अधीन नहीं होगा, अर्थात् **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** और **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021**।
- “With a prohibition, you can’t do consultations,” Mr. Vaishnaw said.
“प्रतिबंध के साथ, आप परामर्श नहीं कर सकते,” श्री वैष्णव ने कहा।
- The industry appealed to **Union Home Minister Amit Shah** for reprieve.
उद्योग ने **केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह** से राहत की अपील की।
- **Zupee**, a prominent **RMG ludo app**, said it was “discontinuing” its “paid” games. **Nazara Technologies Ltd.**, which invested **\$122 million** in **PokerBaazi**, saw its shares dip **2%** on **Thursday**. It had slid about **15%** since the Bill was introduced in the **Lok Sabha**.
प्रमुख **आरएमजी लूडो ऐप जूपी** ने कहा कि वह अपने “पेड” खेलों को “बंद” कर रहा है। **नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**, जिसने **पोकरबाज़ी** में **122 मिलियन डॉलर** का निवेश किया, ने अपने शेयरों को **गुरुवार** को **2%** गिरते देखा। जब से यह विधेयक **लोकसभा** में पेश किया गया, तब से यह लगभग **15%** तक गिर चुका था।
- “Nazara has no direct exposure to real money gaming (RMG) businesses,” the firm said in a letter.
कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा, “नज़ारा का वास्तविक धन गेमिंग (आरएमजी) व्यवसायों में कोई प्रत्यक्ष जोखिम नहीं है।”
- “The company’s only indirect exposure to RMG is its **46.07% stake in Moonshine Technologies Private Ltd. (PokerBaazi)**.
“कंपनी का आरएमजी में केवल अप्रत्यक्ष जोखिम **मूनशाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पोकरबाज़ी)** में इसकी **46.07% हिस्सेदारी** है।”
- **‘No financial impact’**
‘कोई वित्तीय प्रभाव नहीं’
- “As Nazara does not hold majority stake or exercise control, Moonshine’s revenue is not consolidated in the firm’s financial statements and has no impact on the company’s reported revenue or EBITDA.”
“चूंकि नज़ारा के पास बहुमत हिस्सेदारी या नियंत्रण नहीं है, मूनशाइन की आय कंपनी के वित्तीय विवरणों में समेकित नहीं है और इसका कंपनी की रिपोर्ट की गई आय या ईबीआईटीडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।”
- **Delta Corp Ltd.**, a casino and gaming company, also saw its shares dip **3.14%**.
कैसीनो और गेमिंग कंपनी **डेल्टा कॉर्प लिमिटेड** ने भी अपने शेयरों को **3.14%** गिरते देखा।



PICTURE OF THE WEEK

Just monkeying around



GS III: Environment

A volunteer of the Nature Conservation Foundation helps **lion-tailed macaques** cross the road at Puthuthottam on the Pollachi-Valparai Road in Coimbatore district. Lion-tailed macaques were reassessed and classified as an 'endangered' species in the IUCN Red List in 2020. An estimated 2,500 mature individuals are distributed in the Western Ghats hill ranges between the Kalakkad Hills in the south and Sirsi-Honnavaara in the north. India's Wildlife (Protection) Act, 1972, gives lion-tailed macaques the highest conservation priority by listing the species under the Schedule-I. PERIASAMY M.

Lion-tailed Macaque (*Macaca silenus*)

- **Scientific Name:** *Macaca silenus*
- **Endemic to:** Western Ghats of India (Kerala, Karnataka, Tamil Nadu).
- **Name Origin:** Called *Lion-tailed* because of its **long black tail with a tuft of hair at the end**, resembling a lion's tail.

Physical Features

- **Size:** 40–60 cm in body length.
- **Tail:** About 25 cm with lion-like tuft.
- **Appearance:**
 - Black body fur.
 - **Silver-white mane** surrounding the face (like a lion's mane).
 - Distinct expressive face.

Habitat & Diet

- Found in **tropical evergreen forests and montane forests** of the Western Ghats.
- Arboreal (live mostly on trees).
- **Diet:** Omnivorous – mainly fruits, leaves, insects, seeds, and small animals.

Conservation Status



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- **IUCN Red List: Endangered** ●
- **CITES:** Appendix I
- **Indian Wildlife Protection Act, 1972:** Schedule I (highest protection).
- Population is estimated at **less than 3,500 mature individuals.**

PATRIOTIC IAS